



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 27, 1976 (अग्रहायण 6, 1898)
No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 27, 1976 (AGRAHAYANA 6, 1898)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग I—खण्ड 4

PART I—SECTION 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 1976

सं० 2884, दिनांक 13 अक्टूबर, 1976:—भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रांथ प्रदेशसंर्ग के अधिकारी श्री जे० एच० नारायण को दिनांक 11 अक्टूबर, 1976 (पूर्वाह्न) से राष्ट्रपति रक्षा मंत्रालय में अवर सचिव नियुक्त करते हैं।

सं० 2885, दिनांक 14 अक्टूबर, 1976:—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्थायी ग्रेड I के अधिकारी श्री एच० आर० चोपड़ा की सेवाबन्धि को राष्ट्रपति निम्नलिखित प्रकार से बढ़ाते हैं:—

1. भूतपूर्व रक्षा मंत्री के कार्यालय के "विशेष स्टाफ" में दिनांक 1-12-75 से 24-12-75 तक निजी सचिव के रूप में।
2. रक्षा उत्पादन मंत्री के दिनांक 25-12-75 से 30-6-77 तक निजी सचिव के रूप में या जब तक मंत्री जी को उनकी सेवाओं की आवश्यकता हो इसमें से जो भी पहले हो।

एस० एन० राय, अवर सचिव

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

रक्षा विज्ञान सेवा

सं० 2886, दिनांक 27 अक्टूबर, 1976:—त्यागपत्र स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप श्री आर० एन० टण्डन, अस्थायी कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला, हैदराबाद ने—दिनांक 28 जून, 1976 (अपराह्न) में इस पद का कार्यभार त्याग दिया।

डी० आर० रामास्वामी, उप निदेशक

रक्षा उत्पादन विभाग

सं० 2887, दिनांक 11 अक्टूबर, 1976:—राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित अधिकारियों को स्थायी तकनीकी अधिकारी, उत्पादन तथा निरीक्षण निदेशालय (नौ सेना)/व युद्धपोत निदेशालय संविद के पद पर नियुक्त करते हैं:—

श्री टी० एन० घबर, स्थानापन्न वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, 16 अप्रैल, 1968।

श्री डी० डी० गनोतरा, स्थानापन्न वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, 22 अप्रैल, 1968।

श्री बी० बी० सिंह, स्थायी कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी/स्थानापन्न वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, 1 जुलाई 1971।

श्री जे० एम० वासुदेव, स्थायी तकनीकी अधिकारी/स्थानापन्न वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, 1 जुलाई 1971।

श्री बी० डी० प्रधान, स्थायी कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी/स्थानापन्न वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, 1 जुलाई, 1971।

सं० 2888, दिनांक 29 अक्टूबर, 1976:—राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित पदोन्नतियां/नियुक्तियां करते हैं:—

रक्षा विज्ञान सेवा

श्री आनन्द स्वरूप, स्थायी प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी, निदेशालय, उत्पादन एवं निरीक्षण (इलेक्ट्रॉनिक्स), नई दिल्ली को इसी निदेशालय में स्थानापन्न उप मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर, 4 सितम्बर, 1976 (पूर्वाह्न)।

श्री एम० उनीशंकरन, अस्थायी जे० एस० ओ० (स्थायी जे० एस० ए० श्रेणी-I) निरीक्षण नियन्त्रणालय (अस्त्राशस्त्र), जबलपुर को इसी संस्थान में स्थानापन्न बरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-II के पद पर, 21 जुलाई 1976 (पूर्वाह्न) ।

श्री पी० आर० ग्येन, अस्थायी जे० एस० ओ० (स्थायी जे० एस० ए० श्रेणी-I), धातुओं का निरीक्षणालय, कटनी को इसी संस्थान में स्थानापन्न बरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-II के पद पर, 16 अगस्त, 1976 (पूर्वाह्न) ।

श्री एस० सी० जैन, अस्थायी जे० एस० ओ० (स्थायी फोरमैन), निरीक्षण नियन्त्रणालय (भोजार), वेहरातून को इसी संस्थान में स्थानापन्न बरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-II के पद पर, 28 अगस्त, 1976 (पूर्वाह्न) ।

श्री एन० एल० कृष्णामूर्थी, अस्थायी जे० एस० ओ० (स्थायी फोरमैन), आयुद्ध निरीक्षणालय, बरणगांव को आयुद्ध निरीक्षणालय, तिरुचिरापल्ली में स्थानापन्न बरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-II के पद पर, 13 सितम्बर, 1976 (पूर्वाह्न) ।

श्री एच० मुरली मोहन, स्थायीवत् जे० एस० ओ० आयुद्ध निरीक्षणालय, सिकन्दराबाद को आयुद्ध निरीक्षणालय, खमरिया में स्थानापन्न बरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-II के पद पर, 15 सितम्बर, 1976 (पूर्वाह्न) ।

श्री के० पी० राव, स्थायीवत् जे० एस० ओ०, आयुद्ध निरीक्षणालय, सिकन्दराबाद को आयुद्ध निरीक्षणालय, कलकत्ता में स्थानापन्न बरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-II के पद पर, 16 सितम्बर, 1976 (पूर्वाह्न) ।

श्री पी० के० एम० आर० निमोनकर, स्थायीवत् जे० एस० ओ० धातुओं का निरीक्षणालय, अम्बरनाथ को धातुओं के निरीक्षणालय, ईशापुर में स्थानापन्न बरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-II के पद पर, 27 सितम्बर, 1976 (पूर्वाह्न) ।

श्री बलजीत सिंह, अस्थायी जे० एस० ओ० छोटे हथियारों के निरीक्षणालय कानपुर को इसी संस्थान में, दो वर्ष की परखावधि पर, अस्थायी बरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-II के पद पर, 5 अक्टूबर, 1976 (पूर्वाह्न) ।

श्री श्यामल चट्टोपाध्याय को निरीक्षण नियन्त्रणालय (सैन्य विस्फोटक), किरकी में दो वर्ष की परखावधि पर अस्थायी कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर, 14 सितम्बर, 1976 (पूर्वाह्न) ।

श्री एम० के० सेन, स्थायी प्रमुख वैज्ञानिक, निरीक्षण नियन्त्रणालय (धातु), ईशापुर को धातुओं का निरीक्षणालय, ईशापुर में स्थानापन्न उप मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर, 13 सितम्बर, 1976 (पूर्वाह्न) ।

श्री सी० राजेन्द्रन, स्थायीवत् जे० एस० ओ० अस्त्राशस्त्रों का निरीक्षणालय, अम्बरनाथ को निरीक्षण नियन्त्रणालय (अस्त्राशस्त्र), जबलपुर में स्थानापन्न एस० एस० ओ० श्रेणी-II के पद पर, 4 अक्टूबर, 1976 (पूर्वाह्न) ।

श्री के० भार्गव, स्थायीवत् जे० एस० ओ० आयुद्ध निरीक्षणालय, चन्द्रपुर को निरीक्षण नियन्त्रणालय (अस्त्राशस्त्र), जबलपुर में स्थानापन्न एस० एस० ओ० श्रेणी-II के पद पर, 8 अक्टूबर, 1976 (पूर्वाह्न) ।

श्री संजीव कपूर को निरीक्षण नियन्त्रणालय (सैन्य विस्फोटक), किरकी में, दो वर्ष की परखावधि पर, अस्थायी जे० एस० ओ० के पद पर, 19 अक्टूबर, 1976 (पूर्वाह्न) ।

सं० 2889, दिनांक 30 अक्टूबर, 1976—राष्ट्रपति महोदय सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

रक्षा विज्ञान सेवा

श्री जी० कामेश्वर राव, स्थायी प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी, मुख्य निरीक्षणालय सामग्री, कानपुर को इसी संस्थान में स्थानापन्न उप मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर, 31 अगस्त, 1976 (पूर्वाह्न) ।

सं० 2890, दिनांक 1 नवम्बर, 1976—निम्नलिखित अधिकारी दी हुई तिथि से सेवानिवृत्त हुआ:—

श्री जी० एन० चनसरकार, अस्थायी बरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-II (स्थायी प्रशासनिक अधिकारी), आयुद्ध निरीक्षणालय, किरकी, 30 सितम्बर, 1976 (पूर्वाह्न) ।

एन० के० सेनगुप्ता, उप निदेशक (प्रशासन)

सं० 2891, दिनांक 2 नवम्बर, 1976—राष्ट्रपति महोदय सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :।

रक्षा विज्ञान सेवा

श्री रमेश चन्द्रवाही, दिनांक 19 अक्टूबर, 1976 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष के परिबीक्षा काल के लिए, मुख्य निवासी निरीक्षक, तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (वायु), हैदराबाद में अस्थायी बरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, श्रेणी-II (निरीक्षण अधिकारी) नियुक्त हुए ।

शि० वे० भांकरन्, निदेशक

राष्ट्रीय कैंडेट कोर

सं० 2892, दिनांक 1 नवम्बर, 1976—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों का उनके नामों के सामने दी गई तारीख से राष्ट्रीय कैंडेट कोर से त्यागपत्र स्वीकार करते हैं :—

सीनियर डिबीजन (थल सेना स्कंध)

महाराष्ट्र

कैप्टन एम० वी० गोखले (एन० सी० सी०/131), 16 जुलाई, 1974 ।

दिल्ली

लैफ्टि० पी० एल० यजाज (एन० सी० सी०/5608), 30 अक्टूबर, 1975 ।

बिहार

लैफ्टि० ए० पी० सिंह (एन० सी० सी०/3595), 3 अप्रैल, 1976 ।

सं० 2893, दिनांक 1 नवम्बर, 1976—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों का 8 जुलाई, 1976 से राष्ट्रीय कैंडेट कोर से त्यागपत्र स्वीकार करते हैं । उनके नामों के सामने कोष्ठकों में दी गई अवधि राष्ट्रीय कैंडेट कोर में बरिष्ठता या पदोन्नति या अन्य किसी लाभ के लिए नहीं गिनी जाएगी :—

सीनियर डिबीजन (थलसेना स्कंध)

महाराष्ट्र

लैफ्टि० पी० ई० भारदी (एन० सी० सी०/954), (1 अप्रैल, 1975 से 7 जुलाई, 1976) ।

तमिलनाडु

कैप्टन ए० ई० आरमुगम (एन० सी० सी०/14103), (1 जुलाई, 1976 से 7 जुलाई, 1976) ।

मध्य प्रदेश

कैप्टन इन्द्रजीत महाजन (एन० सी० सी०/2338), (1 नव०, 1975 से 7 जुलाई, 1976) ।

पश्चिम बंगाल

कैप्टन ए० के० चौधरी (एन० सी० सी०/3089), (12 मार्च, 1974 से 7 जुलाई, 1976) ।

उत्तर प्रदेश

लेफ्टि० एम० एस० सिद्दीकी (एन० सी० सी०/13631), (11 जून, 1975 से 7 जुलाई, 1976)।

कर्नाटक

लेफ्टि० एस० आर० नाइक (एन० सी० सी०/7560), (1 अप्रैल, 1976 से 7 जुलाई, 1976)।

गुजरात

लेफ्टि० एन० जे० टिड्डवानी (एन० सी० सी०/10073), (22 अप्रैल, 1975 से 7 जुलाई, 1976)।

भ्रांघ्र प्रदेश

लेफ्टि० बी० एन० मूर्ति (एन० सी० सी०/8778), (29 फरवरी, 1976 से 7 जुलाई, 1976)।

सं० 2894, दिनांक 1 नवम्बर, 1976—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को उनके नामों के सामने दी गई तारोख से राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर से सेवामुक्त करते हैं :—

सीनियर डिबीजन (थलसेना स्क्व)

महाराष्ट्र

2/लेफ्टि० जे० जी० बग्गा (एन० सी० सी०/755), 1 अप्रैल, 1968।

मध्य प्रदेश

लेफ्टि० आर० के० शुक्ल (एन० सी० सी०/2346), 28 जुलाई, 1973।

उत्तर प्रदेश

कैप्टन बी० बी० सिंह (एन० सी० सी०/5106), 13 जुलाई, 1976।

लेफ्टि० एन० एल० शर्मा (एन० सी० सी०/5319), 16 जुलाई, 1975।

कैप्टन आई० ए० खां (एन० सी० सी०/4249), 10 जुलाई, 1976।

लेफ्टि० ओ० पी० सोती (एन० सी० सी०/5344), 1 अगस्त, 1976।

मेजर जे० पी० अग्रवाल (एन० सी० सी०/4346), 2 अगस्त, 1976।

लेफ्टि० जी० एस० लबानियां (एन० सी० सी०/4697), 1 जुलाई, 1972।

दिल्ली

लेफ्टि० आर० के० रस्तोगी (एन० सी० सी०/5542), 22 जनवरी, 1976।

हरियाणा

कैप्टन बी० एम० शर्मा (एन० सी० सी०/6031), 5 जून, 1976।

कर्नाटक

कैप्टन बी० एल० सी० राजन (एन० सी० सी०/7055), 26 अगस्त, 1976।

केरल

कैप्टन टी० ए० वर्गीज (एन० सी० सी०/7968), 7 जुलाई, 1976।

कैप्टन बी० ए० चाको (एन० सी० सी०/7680), 26 अगस्त, 1976।

भ्रांघ्र प्रदेश

लेफ्टि० जी० एस० पी० राव (एन० सी० सी०/8772), 15 जुलाई, 1976।

मेजर के० सत्यनारायण (एन० सी० सी०/8253), 1 जुलाई, 1976।

राजस्थान

कैप्टन के० एन० गुप्त (एन० सी० सी०/9161), 20 जून, 1976।
2/लेफ्टि० बी० एस० पासीवाल (एन० सी० सी०/9530), 14 सितम्बर, 1974।

महाराष्ट्र

कैप्टन टी० जे० पवार (एन० सी० सी०/306), 1 जुलाई, 1976।

तमिलनाडु

मेजर के० पांडुरंगम (एन० सी० सी०/1154), 2 अगस्त, 1975।

पश्चिम बंगाल

मेजर एस० दास (एन० सी० सी०/2541), 1 जुलाई, 1976।

उत्तर प्रदेश

कैप्टन के० बी० चतुर्वेदी (एन० सी० सी०/4799), 20 अप्रैल, 1975।

कैप्टन बी० एस० शर्मा (एन० सी० सी०/4340), 1 मार्च, 1976।

मेजर बी० बी० एस० बिसेन (एन० सी० सी०/4156), 1 जनवरी, 1974।

कैप्टन एस० सिंह (एन० सी० सी०/4646), 10 फरवरी, 1976।

चंडीगढ़

मेजर एम० एम० सिंह (एन० सी० सी०/5818), 25 मई, 1976।

कर्नाटक

कैप्टन श्री० बद्रीनाथ (एन० सी० सी०/7151), 5 मार्च, 1976।

केरल

कैप्टन पी० राधाकृष्णन (एन० सी० सी०/7843), 15 मई, 1976।

भ्रांघ्र प्रदेश

मेजर ए० बी० राव (एन० सी० सी०/8325), 1 जुलाई, 1976।

सीनियर डिबीजन (नौसेना स्क्व)

महाराष्ट्र

लेफ्टि० आर० डी० चवाधे (एन० सी० सी० एन०/188), 3 जनवरी, 1976।

भ्रांघ्र प्रदेश

सब लेफ्टि० बी० राजसिन्हा (एन० सी० सी० एम०/11017), 11 जून, 1976।

सं० 2895, दिनांक 17 नवम्बर, 1976—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को 8 जुलाई, 1976 से राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर से सेवामुक्त करते हैं। उनके नामों के सामने कोष्ठकों में दी गई अवधि राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर में त्रिषष्ठता या पदोन्नति या अन्य किसी लाभ के लिए नहीं गिनी जाएगी।

सीनियर डिबीजन (थलसेना स्क्व)

महाराष्ट्र

कैप्टन एस० एन० चौहान (एन० सी० सी०/335), (1 मार्च, 1974 से 7 जुलाई, 1976)।

लेफ्टि० डी० के० पाटिल (एन० सी० सी०/807), (1 मार्च, 1969 से 7 जुलाई, 1976)।

तमिलनाडु

कैप्टन एम० नतासन (एन० सी० सी०/1602), (23 सित० 1974 से 7 जुल०, 1976)।

मध्य प्रदेश

कैप्टन जिले सिंह (एन० सी० सी०/1908), (1 अगस्त, 1968 से 7 जुल०, 1976)

उत्तर प्रदेश

लैफ्टि० आर० आर० सिंह (एन० सी० सी०/5334), (1 सित०, 1974 से 7 जुलाई, 1976)

2/ लैफ्टि० एस० पी० बल्ला (एन० सी० सी०/13787), (26 जून, 1975 से 7 जुल०, 1976)।

लैफ्टि० आर० सी० श्रीवास्तव (एन० सी० सी०/5368), (3 सित० 1973 से 7 जुल०, 1976)।

लैफ्टि० पी० पी० सिंह (एन० सी० सी०/5140), (1 नव० 1974 से 7 जुल०, 1976)।

लैफ्टि० बी० डी० वैश (एन० सी० सी०/5037), (1 नव० 1973 से 7 जुल०, 1976)।

कैप्टन जे० ए० नाथन (एन० सी० सी०/5021), (1 जुल० 1974 से 7 जुल०, 1976)।

कैप्टन एस० आर० सिंह (एन० सी० सी०/4895), (1 जुल० 1974 से 7 जुल०, 1976)।

लैफ्टि० एस० पी० अग्रवाल (एन० सी० सी०/5485), (14 अगस्त, 1975 से 7 जुल०, 1976)।

दिल्ली

कैप्टन वी० पी० सेनी (एन० सी० सी०/4668), (20 दिस०, 1974 से 7 जुल०, 1976)।

गुजरात

कैप्टन के० वी० नाइक (एन० सी० सी०/9991), (22 जून, 1975 से 7 जुल०, 1976)।

शुद्धिपत्र

सं० 2896, दिनांक 19 अक्टूबर, 1976—भारत के राजपत्र दिनांक 1 नवम्बर, 1975 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय अधिसूचना सं० 2707 दिनांक 29 सितम्बर, 1975 में शीर्षक "जूनियर डिवाजन (थल सेना स्कंध)" के अन्तर्गत उपशीर्षक "तृतीय अफसरों की द्वितीय अफसरों के रूप में" तथा "महाराष्ट्र" के नीचे "एन० एस० भाऊ (एन० सी० सी० जे०/81594)" के स्थान पर "एस० बी० नलदाई (एन० सी० सी० जे०/81594)" पढ़ें।

एस० पी० गोयल, कार्मिक निदेशक

सं० 2897, दिनांक 2 नवम्बर, 1976—निम्नलिखित को राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर में कर्नल का अवैतनिक रैंक प्रदान किया जाता है तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में निदेशक पद पर नियुक्त रहने की अवधि तक उन्हें अवैतनिक कर्नल कमांडेंट नियुक्त किया जाता है :—

डा० अभिताभ भट्टाचार्य
बी० एम० ई० (अनर्स), एम० ई० एम० एस० सी० (इलिनॉयस), पी० एच० डी०
निदेशक

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर 2 मई, 1976।

महेन्द्र सिंह निदेशक (टी०)

(थल सेना विभाग)

सं० 2898, दिनांक 9 नवम्बर, 1976—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को पद प्रदान करते हैं :—

निजी स्टाफ

लैफ्टिनेंट कर्नल पी० बी० गुरजर (आई० सी०-7051) इंजीनियर्स, को लैफ्टि० कर्नल एन० एस० उषाया (आई० सी०-5391) के स्थान पर 1 नवम्बर 1976 से राष्ट्रपति का उप सैनिक सचिव नियुक्त किया।

आर० सी० जैन, अवर सचिव

(थल सेना विभाग)

सं० 2899, दिनांक 2 नवम्बर, 1976—राष्ट्रपति सहर्ष लैफ्टिनेंट जनरल जी० एल० चौपड़ा (आई० सी०-963) को 18 अक्टूबर, 1976 से ग्रामी ऑर्गेनाइज कोर के कर्नल कमांडेंट के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 2900, दिनांक 2 नवम्बर, 1976—राष्ट्रपति सहर्ष मेजर जनरल आर० टी० मोलिन (आई० सी०-4045), ए० वी० एस० एम० को 18 अक्टूबर 1976 से सिख रेजिमेंट के कर्नल के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 2901, दिनांक 2 नवम्बर, 1976—राष्ट्रपति, सहर्ष मेजर जनरल बी० डी० कान्हे (आई० सी०-4697) को 18 अक्टूबर, 1976 से 4 गोरखा राइफल्स के कर्नल के रूप में नियुक्त करते हैं।

हरमन्दर सिंह, संयुक्त सचिव

सं० 2902, दिनांक 29 अक्टूबर, 1976—निम्नलिखित अफसर को आस्ट्रेलिया भारतीय बूतवास के सैनिक सहकारी के रूप में कर्नल का स्थानीय रैंक द्वारा प्रदान किया जाता है जिसका उनके वेतन और पेंशन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा :—

लैफ्टिनेंट कर्नल इकबाल सिंह (आई० सी०-8409), गढ़वाल, राइफल्स-25 सितम्बर, 1976।

सं० 2903, दिनांक 29 अक्टूबर, 1976—निम्नलिखित अफसर ने कर्नल का स्थानीय रैंक जो उन्हें 16 जून, 73 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय अधिसूचना संख्या 1519 दिनांक 26 मई, 73 द्वारा प्रदान किया गया था, छोड़ दिया :—

लैफ्टिनेंट कर्नल वी० सी० जोशी (आई० सी०-7011), 64 कैबेलरी, 05 अक्टूबर, 1976।

टी० जेकब, उप-सचिव

सं० 2904, दिनांक 18 अक्टूबर, 1976—परब अरवि पूरी होने पर, राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों की नियुक्ति पक्की करते हैं :—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्थायी कमीशन)

कैप्टन बी० पी० खटक डी० आर०-10264 पी०-29-6-74।

कैप्टन अनील कुमार-डी० आर०-10265 एक्स०-29-6-74।

कैप्टन एम० के० अग्निहोत्री-डी० आर०-10266 ए०-29-6-74।

कैप्टन परमजीत सिंह डी० आर०-10267 ए० 29-6-74।

कैप्टन यू० पी० लक्ष्मीराज-डी० आर०-10268 ए०-29-6-74।

त्रिलोक चन्द भाटिया, अवर सचिव

सं० 2905, दिनांक 25 अक्टूबर, 1976 —राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों की पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी आयोग

बिप्रेडियर से मेजर जनरल के रैंक में

दरयाब सिंह (एम० आर०-00462एम०), सैनिक डाक्टरी कोर पी० सी०, 26 अक्टूबर, 1975 (बरीयता उनके वेतन व पेंशन पर कोई प्रभाव डाले बिना 1 जनवरी, 1975 से)

राजेन्द्र लाल, संयुक्त सचिव

सं० 2906, दिनांक 28 अक्टूबर, 1976 —राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों की पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कैप्टन से मेजर

जी० बी० कुलकर्णी (आई० सी०-14306) इंजीनियर्स—19 दिसम्बर, 1973 ।

एम० जे० एस० केन्स (आई० सी०-12467), ई० एम० ई०-18 दिसम्बर, 1973 ।

के० द्वारकानाथ (आई० सी०-14304) ई० एम० ई०-19 दिसम्बर, 1973 ।

जी० आर० मायर (आई० सी०-8492) पायनियर कोर 16 अक्टूबर 1973 ।

आर० एस० गारखेल (आई० सी०-12347) ए० आर० सी० 21 अक्टूबर, 1975 ।

मोहिन्द्र सिंह (आई० सी०-13786), एस० आर० गोदरा (आई० सी०-13952), एच० एस० मगत (आई० सी०-13962), जनकबीर सिंह (आई० सी०-14254), इन्फैन्ट्री—11 दिसम्बर, 1975 ।

नन्द किशोर (आई० सी०-13790), आर्टी०—11 मार्च, 1976

आर० सी० जेटली (आई० सी०-13669)—इन्फैन्ट्री—11 जून, 1976

आर० के० मिनोचा (आई० सी०-13541) ई० एम० ई०—11 जून, 1976 ।

राजेन्द्र सिंह उप्पल (आई० सी०-15000), राजेन्द्र कुमार (आई० सी०-15002), एम० सी० गौतम (आई० सी०-15004), बी० के० खन्ना (आई० सी०-15006), नरेन्द्रा प्रकाश मोल (आई० सी०-15018) विजेश्वर प्रताप सिंह (आई० सी०-15020), कृष्ण मार लाम्बा (आई० सी०-15022), प्रकाश सूरी (आई० सी०-15025), दीपक कुमार सेन (आई० सी०-15028), बी० के० कोहली (आई० सी०-15029), ईशमानी ललित चन्द्र (आई० सी०-15030), एस० के० भाटिया (आई० सी०-15031), विरेन्द्र कुमार सिंह (आई० सी०-15032), एम० एस० वेंकटरमन (आई० सी०-15033), राकेश भार्गवा (आई० सी०-15037) अशोक कुमार खन्ना (आई० सी०-15038), एस० के० नाथन (आई० सी०-15040), बी० के० दुग्गा (आई० सी०-15041), निरंजन सिंह (आई० सी०-15044), ए० एस० शिमा (आई० सी०-15046), रामचन्द्रन कामेश्वर कुमार (आई० सी०-15048), हरीन्द्र सिंह (आई० सी०-15049), एस० के० नागिष्ठा (आई० सी०-15053), टी० जी० शंकर (आई० सी०-15056), वलीप सिंह बाजवा (आई० सी०-15058), एस० एन० महाजन (आई० सी०-15061), के० आर० मोहन (आई० सी०-15067), आर० पी० एस० मलिक (आई० सी०-15069), सुखदेव सिंह (आई० सी०-15071), बी० के० खन्ना (आई० सी०-15073), बी० के० भोवराय

(आई० सी०-15080), एस० एस० गिल्ल (आई० सी०-15081), एम० सी० गोगिष्ठा (आई० सी०-15083), बम्मल बीर सिंह (आई० सी०-15091), जी० एल० बाघवा (आई० सी०-15092), ए० आर० सुब्रामनियन (आई० सी०-15096), आर० एस० मंनराल (आई० सी०-15101), बी० एस० नगेशराय (आई० सी०-15102), हेत सिंह (आई० सी०-15107), ए० एस० शर्मा (आई० सी०-15108), ए० के० मन्जेश्वर (आई० सी०-15110), कुलभूषण सेठी (आई० सी०-15111), नीलकांत विश्वनाथन (आई० सी०-15115), इंजीनियर्स—30 जून, 1976 ।

स्थायी कमीशन

(विशेष सूची)

कैप्टन से मेजर

जोगिन्द्र सिंह (एस० एल० 580)—25 जनवरी, 1976 ।

के० बी० माधवा (एस० एल० 616)—30 मई, 1976 ।

सोहन सिंह (एस० एल० 628)—6 अगस्त, 1976 ।

ए० एच० सैयद (एस० एल० 639), पी० बालकुम सुग्रीया (एस० एल० 644), प्रताप सिंह (एस० एल० 646), जे० करान्दे (एस० एल० 650)—17 अगस्त, 1976 ।

स्थायी कमीशन

लेफ्टिनेन्ट से कैप्टन

राज मल (आई० सी०-28544), श्रीधर कुमार (आई० सी०-28569) और एस० बी० श्री कृष्ण (आई० सी०-28621), आर० टी०—21 अगस्त, 1975 ।

आर० एफ० खान (आई० सी०-28595) ए० आर० सी०—21 अगस्त 1975 ।

एम० एस० भट्टी (आई० सी०-28319), ई० एम० ई०—21 अगस्त, 1975 ।

ए० एम० अयते (आई० सी०-23729) आर्मर्ड कोर, —21 दिसम्बर, 1975 ।

बी० के० गुप्ता (आई० सी० 23891) सतनाम सिंह (आई० सी० 23886) अशोक कुमार (आई० सी० 23885) आर्टी, 21 दिसम्बर 1975 ।

एस० के० बखशी, (आई० सी०-23816), इन्जीनियर्स—21 दिसम्बर, 1975 ।

विक्रम सिंह (आई० सी०-23789), एम० पी० एस० विक (आई० सी०-24038) इन्फैन्ट्री—21 दिसम्बर, 1975 ।

ए० एस० बालगन (आई० सी०-24037), ए० एस० सी०, —21 दिसम्बर, 1975 ।

एस० डी० जमलोकी (आई० सी०-24022), आई० एस० राओ (आई० सी०-24044), ए० आर० सी०—21 दिसम्बर, 1975 ।

स्थायी कमीशन (विशेष सूची)

लेफ्टिनेन्ट से कैप्टन

आर० ए० वाल्लेस (एस० एल०-1526)—1 मई, 1976 ।

चन्द्र मान सिंह (एस० एल०-1554), ई० बी० नाथर (एस० एल०-1556), एस० शिवास्वामी (एस० एल०-1557), अमरीक सिंह (एस० एल०-1575), और प्यारा सिंह (एस० एल०-1596)—15 मई, 1976 ।

बलिर सिंह (एस० एल०-1637), के० जे० पाल (एस० एल०-1642) शीगरा सिंह (एस० एल०-1652), एस० आर० ईदारा (एस० एल०-1657), टी० बी० सोथारमन (एस० एल०-1658) और के० एस० सुमन्त (एस० एल०-1661)—16 जून, 1976 ।

कृष्ण दत्त (एस० एल०-1665), एम० ए० खान (एस० एल०-1666),
बी० ऐ० रेड्डी (एस० एल०-1667), एस० एस० भण्णारी, (एस० एल०-
1668), आर० एस० मेहता (एस० एल०-1669), अमर नाथ (एस० एल०-
1670), एम० चोकार्णिसिम (एस० एल०-1671), और एम० पी० शर्मा
(एस० एल०-1672)—1 जुलाई, 1976।

के० एम० कमलाकरण (एस० एल०-1673)—4 जुलाई, 1976।

बी० नागराज (एस० एल०-1675), पी० जी० गनापथी, (एस०
एल०-1676)—1 जुलाई, 1976।

पूरन सिंह (एस० एल०-1677)—11 जुलाई, 1976।

रघुनाथ प्रसाद (एस० एल०-1678), भोगिन्द्र सिंह (एस० एल०
1680) और निर्मल सिंह (एस० एल०-1684)—1 जुलाई, 1976।

स्थायी कमीशन

2/लेफ्टिनेन्ट से लैफ्टिनेन्ट

अभोजित गुहा (आई० सी०-30342) आर्टी—16 जून, 1976।

के० के० डांगवाल (आई० सी०-30339), इंजीनियर्स—16 जून,
1976।

प्रदीप कुमार (आई० सी०-30549) राजपूत रेजीमेन्ट—16 जून,
1976।

बी० के० प्रीन्जा (आई० सी०-30564) ए० एस० सी०—16 जून,
1976।

अल्पकालीन कमीशन

लैफ्टिनेन्ट से आर्द्ध स्थायी कैप्टन

ई० बी० पैटरो (एस० एस० 17365), ई० एम० ई०—14 फरवरी,
1972।

प्रेम कुमार (एस० एस० 17443), ई० एम० ई०—30 अगस्त,
1971।

जे० बी० सिंह, (एस० एस०-18664), पी० आर० जोस (एस० एस०-
18855) तथा अलबेल सिंह (एस० एस० 18862), ए० ओ० सी०—
24 अप्रैल, 1975।

बी० आर० यादव (एस० एस०-18889), ई० एम० ई०—24 अप्रैल,
1975।

डी० मेहरा (एस० एस०-18896), आर्मर्ड कोर—24 अप्रैल 1975

जी० एल० पंजवानी (एस० एस०-18943), इंजीनियर्स—24
अप्रैल, 1975।

अमरीक सिंह (एस० एस०-18974) तथा एस० के० धानवत (एस० एस०
-18982), ए० एस० सी०—24 अप्रैल, 1975।

वाई० जी० चिताम्बर (एस० एस०-18991), ई० एम० ई०—24
अप्रैल, 1975।

एस० आर० दलाल (एस० एस०-18995), सी० एस० नागपाल (एस०
एस०-19002) तथा पी० के० सयाल (एस० एस०-19011), ए० ओ०
सी०—24 अप्रैल, 1975।

2/लेफ्टिनेन्ट से लेफ्टिनेन्ट

के० ए० उषाया (एस० एस०-27021), आर० एम० रायजादा (एस०
एस०-27048), एस० के० सहगल (एस० एस०-27051), जगतार सिंह
(एस० एस०-27063), डी० एस० मुलतानी (एस० एस०-27054), एम०
ए० खान (एस० एस०-27072), एस० एन० आनन्द (एस० एस०-27074)
के० के० मालविया, (एस० एस० 27082), ए० सी० चिब्लर (एस० एस०
27121), एम० आर० तार (एस० एस०-27122), डी० बी० नाथन
(एस० एस०-27136), एस० दत्ता (एस० एस० 27144), आर० के०
गुप्ता (एस० एस०-27151), पी० मोहन (एस० एस०-27155), आर०

सी० सरणा (एस० एस०-27157), एस० के० सैनी (एस० एस०-27179),
जे० एम० युमपुष्कल (एस० एस०-27189), पी० आर० चौधरी (एस० एस०-
27192), सुनील कुमार (एस० एस० -27223), टी० मजुमदार, (एस०
एस०-27224), एस० सेन गुप्ता, (एस० एस० 27235), एस० के० बसु
(एस० एस०-27248) टी० बी० सवासिधन (एस० एस०-27254), बी०
बी० मोहन (एस० एस०-27258), ए० आर० राव (एस० एस०-27266),
प्रोवीर सिंह (एस० एस० 27273), आर० के० डे (एस० एस०-27290),
राजेन्द्र सिंह (एस० एस०-27293), तथा स्वप्न सिंह (एस० एस०-27305),
ई० एम० ई०—12 मई, 1976।

आर० सी० जैन, अधर सचिव

सं० 2907, दिनांक 8 सितम्बर, 1976—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित
नसिय अफसर की पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

मिलिट्री नसिय सेवा (स्थायी)

(लेफ्टिनेन्ट से कैप्टन के रूप में)

कुमारी के० के० सरस्वती (एन० आर० 13831), --26-6-1974
(वरिष्ठता 6-11-1970 से)।

कुमारी टी० सरस्वती (एन० आर० 13849)—26-6-1974 (वरिष्ठता
7-11-1970)।

कुमारी आर० एम० राये (एन० आर०-14038)—26-6-1974
(वरिष्ठता 7 मार्च 1973 से)।

कुमारी एम० धामस (एन० आर०-14442)—5-10-75।

कुमारी एम० अकरावती (एन० आर० -14496)—21-11-1974।

कुमारी सी० बससला (एन० आर०-14529)—11-2-1976।

(सैनिक चिकित्सा कोर)

सूबेदार मेजर क्लर्क (सामान्य ड्यूटी) के पद पर

सूबेदार (क्लर्क-जी० डी०) मुख्त्यार सिंह (जे० सी० 52396)—
1 सितम्बर, 1976।

सूबेदार मेजर (स्टोर कीपर टैक्नीकल) के पद पर

सूबेदार (एस० के० टी०) मदन लाल शर्मा (जे० सी०-45784)—
1 सितम्बर 1976।

सूबेदार मेजर (अम्बुलैन्स असिस्टेंट) के पद पर

सूबेदार (ए० ए०) रघन सिंह (जे० सी० 35114)—1 सितम्बर,
1976।

सूबेदार क्लर्क (सामान्य ड्यूटी) के पद पर

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) तरिन्जन सिंह (जे० सी०-56775)—
1 सितम्बर, 1976

सूबेदार (स्टोर कीपर टैक्नीकल) के पद पर

नायब सूबेदार (एस० के० टी०) जियिल रामन पिल्लै गोपीनाथन (जे०
सी०-51938)—1 सितम्बर, 1976।

सूबेदार (अम्बुलैन्स असिस्टेंट) के पद पर

नायब सूबेदार (ए० ए०) राम सजीवम (जे० सी०-52390)—
1 अगस्त, 1976

नायब सूबेदार (ए० ए०) गोरख सिंह (जे० सी०-63033)—1
सितम्बर, 1976।

नायब सूबेदार (ए० ए०) उमा शंकर (जे० सी०-53831)---1 सितम्बर, 1976

नायब सूबेदार (ए० ए०) धर्म सिंह (जे० सी०-54486)---1 सितम्बर, 1976

सूबेदार (इंजीनियर एम० टी०) के पद पर

नायब सूबेदार (इंजीनियर एम० टी०) रती राम (जे० सी० 57953)---1 सितम्बर, 1976

नायब सूबेदार (इंजीनियर एम० टी०) ज्योती राम (जे० सी०-57750)---1 सितम्बर, 1976

नायब सूबेदार (नर्सिंग टेक्नीशियन) के पद पर

हवलदार (एन० ए०) वैजू सिंह (सं० 6799470 अग्र जे० सी०-84077)---24 फरवरी, 1976

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर, 1975 से दी जायेगी।)

हवलदार (एन० ए०) इबरन सिंह (सं० 6800265 अग्र जे० सी०-84078)---1 मई, 1976

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 दिसम्बर, 1975 से दी जायेगी।)

हवलदार (एन० ए०) किशन सिंह (सं० 6801231 अग्र जे० सी०-84079)---9 फरवरी, 1976 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 दिसम्बर, 1975 से दी जायेगी।)

हवलदार (एन० ए०) हरि नाथ सिंह कुशावाहा (सं० 6802306 अग्र जे० सी०-84080)---12 मार्च, 1976 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1976 से दी जायेगी।)

हवलदार (एन० ए०) बेबी प्रसाद (सं० 6802358 अग्र जे० सी०-84081)---17 मार्च, 1976।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1976 से दी जायेगी।)

त्रिलोक चन्द भाटिया, अवर सचिव

सं० 2908, दिनांक 1 नवम्बर 1976—राष्ट्रपति निम्नलिखित पक्षोन्तिक करते हैं:—

नियमित सेना

इन्दीन्टी

आसाम रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कालजामा (सं० 4336044 अग्र जे० सी०-84327)---14 मार्च 1976* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1976 से दी जायेगी।)

हवलदार आटखामा (सं० 4336144 अग्र जे० सी०-84328)---30 जनवरी, 1976

हवलदार गोलाप चन्द्र मोमोइ (सं० 4336571 अग्र जे० सी०-84329)---12 अप्रैल, 1976

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 जनवरी, 1976 से दी जायेगी।)

हवलदार मैती गोपाल नाथ (सं० 4335204 अग्र जे० सी०-84330)---29 मई 1976 ।

हवलदार सुधीर चन्द्र नरजारी (सं० 4335739 अग्र जे० सी०-84331)---29 मई, 1976 ।

हवलदार लियानगिन सिमटे (सं० 4335289 अग्र जे० सी०-84332)---1 जुलाई, 1976

हवलदार कृष्णा बाबू सिधा (सं० 4335761 अग्र जे० सी०-84333)---1 जुलाई, 1976

हवलदार बाबूलाल निधा (सं० 4335823 अग्र जे० सी०-84334)---23 जुलाई, 1976 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क मिहिर बरन चौधरी (सं० 4335853 अग्र जे० सी०-84335)---1 जुलाई, 1976 ।

बिहार रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

सी० क्यू० एम० एच० राजेश्वर सिंह (4237333 अग्र जे० सी०-84308)---1 जून, 1976

हवलदार रामनाथ सिंह (4235836 अग्र जे० सी०-84309)---17 जून, 1976 ।

हवलदार सत्य नारायण सिंह (4237756 अग्र जे० सी०-84310)---1 जुलाई, 1976 ।

सी० एच० एम० राम बहादुर राय (4237760 अग्र जे० सी०-84307)---13 जुलाई, 1976

झोरा रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अश्वतार मिह (सं० 3946034 अग्र जे० सी०-84293)---1 जून, 1976

हवलदार नन्द खाल (सं० 3949473 अग्र जे० सी०-84294)---7 जून, 1976 ।

हवलदार प्यार चन्द (सं० 3946545 अग्र जे० सी०-84295)---9 जून, 1976 ।

हवलदार शानू राम (सं० 3947502 अग्र जे० सी०-84296)---1 जुलाई, 1976।

हवलदार नमगियाल (सं० 3959200 अग्र जे० सी०-84326)---1 मई, 1976* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 2 फरवरी, 1976 से दी जायेगी।)

हवलदार शम्भु राम (सं० 3946732 अग्र जे० सी०-84316)---24 मई, 1976

हवलदार कुशल सिंह (सं० 3947252 अग्र जे० सी०-84317)---1 जून, 1976

हवलदार धर्म सिंह (सं० 3947439 अग्र जे० सी०-84318)---22 जून, 1976

हवलदार जोगिन्द्र सिंह (सं० 3946274 अग्र जे० सी०-84319)---1 जुलाई, 1976

हवलदार रघुपाल मिह (सं० 3946610 अग्र जे० सी०-84320)---1 जुलाई, 1976

हवलदार प्रशीलम दास (सं० 3951039 अग्र जे० सी०-84321)---
1 जुलाई, 1976।

हवलदार प्रथवी राज (सं० 3951088 अग्र जे० सी०-843221)---
1 जुलाई, 1976।

हवलदार बीन दयाल (सं० 3947467 अग्र जे० सी०-84323)---
1 जुलाई, 1976।

हवलदार मनी राम (सं० 3946691 अग्र जे० सी०-84324)---
1 जुलाई, 1976।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार रत्न लाल (सं० 3948475 अग्र जे० सी०-84325)---
1 मई, 1976।

गढ़वाल राष्ट्रपाल

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार नारायण सिंह महर (सं० 4036147 अग्र जे० सी०-84218)
---1 अगस्त, 1976।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) पृथ्वी सिंह कन्डारी (सं० 4036967 अग्र जे० सी०-
84219)---1 अगस्त, 1976।

हवलदार (क्लर्क) सुदर्शन सिंह धर्तवाल (सं० 4037099 अग्र जे० सी०-
84220)---1 अगस्त, 1976।

हवलदार (क्लर्क) राजेश्वर प्रसाध धस्माना (सं० 4035189 अग्र जे०
सी०-84221)---1 अगस्त, 1976।

हवलदार (क्लर्क) जमराव सिंह बडियारी (सं० 4036091 अग्र जे० सी०-
84222)---1 अगस्त, 1976।

11 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार डम्बरबहादुर सिम्बु (सं० 9403733 अग्र जे० सी० 84203)
---1 जुलाई, 1976*।

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 2 मई, 1976 से दी जायेगी।)

कुमाऊँ रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

बी० एच० एम० भोलू राम (सं० 4150128 अग्र जे० सी०-84311)---
22 अप्रैल, 1976।

हवलदार कन्हैया राम (सं० 4145492 अग्र जे० सी०-84312)---
22 अप्रैल, 1976।

सी० एच० एम० सतबीर सिंह (सं० 4150466 अग्र जे० सी०-84313)
---1 मई, 1976।

हवलदार हिम्मत खन्द (सं० 4147652 अग्र जे० सी०-84314)---
14 जून, 1976*।

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 1 मई, 1976 से दी जायेगी।)

हवलदार प्रताप सिंह (सं० 4149179 अग्र जे० सी० 84315)---
1 जुलाई, 1976।

हवलदार ब्रह्मादत्त (सं० 4147415 अग्र जे० सी०-84206)---
6 जुलाई, 1976।

महार रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

सी० एच० एम० हिमांशु भोमिक (सं० 9206062 अग्र जे० सी०-
84297)---1 जुलाई, 1976।

बी० एच० एम० घनी राम (सं० 9206134 अग्र जे० सी०-84298)
---1 जुलाई, 1976।

सी० एच० एम० भोकार खन्द बर्मा (सं० 9204122 अग्र जे० सी०-
84299)---1 जुलाई, 1976।

बी० एच० एम० हनुमान सिंह (सं० 9202942 अग्र जे० सी०-84300)
---1 जुलाई, 1976।

बी० एच० एम० पुरुषोत्तम भाई (सं० 9207874 अग्र जे० सी०-
84301)---1 जुलाई, 1976।

हवलदार तमन्ना काम्बले (सं० 4538977 अग्र जे० सी०-84302)---
3 जुलाई, 1976।

मद्रास रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

सी० एच० एम० कालिमाड़ा पेम्मय्या कस्सिप्पा (सं० 2551297 अग्र
जे० सी०-84072)---1 जुलाई, 1976।

हवलदार पी० बी० पुरुषोत्तमन (सं० 2554415 अग्र जे० सी०-84073)
---6 जुलाई, 1976।

हवलदार पी० अम्पाजी (सं० 2550406 अग्र जे० सी०-84074)---
9 जुलाई, 1976।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क माम्मन टी० एम० (सं० 2546456 अग्र जे० सी०-
84075)---4 अक्टूबर, 1975*।

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 21 सितम्बर, 1975 से दी जायेगी।)

हवलदार क्लर्क एस० चेतलप्पा (सं० 2546514 अग्र जे० सी०-84076)
---3 फरवरी, 1976।

सिख लाईट इन्फैंट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार खनन सिंह (सं० 4439072 एम अग्र जे० सी०-84304)---
8 जून, 1976।

हवलदार अजायब सिंह (सं० 4439185 पी अग्र जे० सी०-84305)---
15 जुलाई, 1976।

हवलदार गुरदेव सिंह (सं० 4439294 एफ अग्र जे० सी०-84306)
---29 जुलाई, 1976।

नायब सूबेदार के रैंक में (जी० डी०)

हवलदार बूटा सिंह (सं० 4438095 एन अग्र जे० सी०-84303)---
5 जुलाई, 1976।

आर० सी० जैन, अवर सचिव

तोपखाना रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार दनानु कदम (सं० 1146579 अग्र जे० सी०-84223)---
4 फरवरी, 1976।

बी० एच० एम० जी० राधाकृष्णन (सं० 1157403 अग्र जे० सी०-84224)—1 मार्च, 1976

भार० एच० एम० सगुप्रसाद (सं० 1162921 अग्र जे० सी० 84225)—1 मार्च, 1976

भार० क्यू० एम० एच० होशियार सिंह (सं० 1164301 अग्र जे० सी०-84226)—1 मार्च, 1976

भार० एच० एम० वकील सिंह (सं० 1146085 अग्र जे० सी०-84227)—1 मार्च, 1976

हवलदार सुखदेव सिंह (सं० 1142188 अग्र जे० सी०-84228)—1 मार्च, 1976

भार० क्यू० एम० एच० तनरखपन नायर पी० एन० (सं० 1147014 अग्र जे० सी०-84229)—1 मार्च, 1976

हवलदार कृष्णन कुट्टिएम (सं० 1155778 अग्र जे० सी० 84230)—1 मार्च, 1976

हवलदार बाबू सिंह झांगी ((सं० 1143633 अग्र जे० सी० 84231)—1 मार्च, 1976

भार० क्यू० एम० एच० सरजीत सिंह (सं० 1144857 अग्र जे० सी०-84232)—1 मार्च, 1976

बी० एच० एम० कृष्ण वास शर्मा (सं० 1145839 अग्र जे० सी०-84233)—1 मार्च, 1976

बी० एच० एम० जगराम सिंह यादव (सं० 1143076 अग्र जे० सी०-84234)—1 मार्च, 1976

भार० एच० एम० जी० शकन (सं० 1153815 अग्र जे० सी०-84235)—1 मार्च, 1976

बी० एच० एम० बीर सिंह यादव (सं० 1156510 अग्र जे० सी०-84236)—1 मार्च, 1976

भार० क्यू० एम० एच० रोशन लाल (सं० 1153939 अग्र जे० सी०-84237)—1 मार्च, 1976

भार० एच० एम० करनेल सिंह (सं० 1163833 अग्र जे० सी० 84238)—1 मार्च, 1976

बी० एच० एम० पूसा सिंह (सं० 1162769 अग्र जे० सी० 84239)—1 मार्च, 1976

बी० एच० एम० परताप सिंह (सं० 1150934 अग्र जे० सी०-84240)—1 मार्च, 1976

हवलदार बहादुर सिंह (सं० 1145977 अग्र जे० सी० 84241)—1 मार्च, 1976

भार० क्यू० एम० एच० गुरदेव सिंह (सं० 1148712 अग्र जे० सी०-84242)—6 मार्च, 1976*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1976 से दी जायेगी।)

भार० एच० एम० रोमेल सिंह (सं० 1154745 अग्र जे० सी० 84243) 7 मार्च, 1976 X

X (नायब सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1976 से दी जायेगी।)

बी० एच० एम० नागर सिंह (सं० 1158797 अग्र जे० सी० 84244)—12 मार्च, 1976=

= (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1976 से दी जायेगी।)

2—344 GI/76

भार० एच० एम० वेलपन नायर के० (सं० 1155451 अग्र जे० सी०-84245)—15 मार्च, 1976%

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1976 से दी जायेगी।)

बी० एच० एम० हराया हीरामठ (सं० 1146117 अग्र जे० सी०-84246)—19 मार्च, 1976**

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 1976 से दी जायेगी।)

बी० एच० एम० के० सोमसुन्दरन (सं० 1147373 अग्र जे० सी०-84247)—25 अप्रैल, 1976 X X

X X (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1976 से दी जायेगी।)

हवलदार कुन्दन लाल (सं० 1160631 अग्र जे० सी० 84248)—23 जून, 1976==

== (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1976 से दी जायेगी।)

भार० एच० एम० ब्याल सिंह (सं० 1274911 अग्र जे० सी०-84249)—22 मार्च, 1976

भार० एच० एम० बीदार सिंह (सं० 1166174 अग्र जे० सी० 74250)—5 मई, 1976%%

%% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 मार्च, 1976 से दी जायेगी।)

भार० एच० एम० अनन्वराव भुजुगाडे (सं० 1170899 अग्र जे० सी०-84251)—6 मई, 1976***

*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 मार्च, 1976 से दी जायेगी।)

भार० एच० एम० पी० टी० बोर्पया (सं० 1155093 अग्र जे० सी०-84252)—1 अप्रैल, 1976

भार० एच० एम० रामकुंवर (सं० 1155269 अग्र जे० सी०-84253)—1 अप्रैल, 1976

भार० एच० एम० धन बहादुर क्षेत्री (सं० 1145365 अग्र जे० सी०-84254)—1 अप्रैल, 1976

भार० एच० एम० किशान लाल शर्मा (सं० 1143546 अग्र जे० सी०-84255)—1 अप्रैल, 1976

बी० क्यू० एम० एच० सुचा सिंह (सं० 1144365 अग्र जे० सी०-84256)—1 अप्रैल, 1976

भार० एच० एम० बीर बहादुर सिंह (सं० 1143845 अग्र जे० सी०-84257)—1 अप्रैल, 1976

बी० क्यू० एम० एच० धर्म सिंह (सं० 1145070 अग्र जे० सी०-84258)—1 अप्रैल, 1976

बी० एच० एम० बचन सिंह (सं० 1153617 अग्र जे० सी०-84259)—1 अप्रैल, 1976

बी० एच० एम० गनेश पाण्डी (सं० 9202139 अग्र जे० सी०-84260)—1 अप्रैल, 1976

बी० एच० एम० प्रीतम सिंह (सं० 1155803 अग्र जे० सी०-84261)—1 अप्रैल, 1976

बी० एच० एम० बलवान सिंह (सं० 1154161 अग्र जे० सी०-84262)—1 अप्रैल, 1976

भार० एच० एम० राबेल सिंह (सं० 1153944 अग्र जे० सी०-84263)
—1 अप्रैल, 1976

बी० एच० एम० भामचन्द्र (सं० 1149096 अग्र जे० सी०-84264)—
1 अप्रैल, 1976

सी० एच० एम० प्रहलाद सिंह (सं० 1149718 अग्र जे० सी०-84265)
—1 अप्रैल, 1976

बी० एच० एम० बृज मोहन लाल शर्मा (सं० 1148866 अग्र जे० सी०-
84266)—1 अप्रैल, 1976

बी० एच० एम० अर्जुन सिंह खत्री (सं० 1150860 अग्र जे० सी०-
84267)—1 अप्रैल, 1976

बी० एच० एम० इन्दर सिंह (सं० 1156404 अग्र जे० सी०-84268)
—1 अप्रैल, 1976

बी० एच० एम० धूम सिंह (सं० 1157876 अग्र जे० सी०-84269)—
1 अप्रैल, 1976

बी० एच० एम० धर्मपाल (सं० 1148112 अग्र जे० सी०-84270)—
1 अप्रैल, 1976

बी० एच० एम० बलबीर सिंह (सं० 1149106 अग्र जे० सी०-84271)
—1 अप्रैल, 1976

बी० एच० एम० ओमदत्त शर्मा (सं० 1143872 अग्र जे० सी०-84272)
—1 अप्रैल, 1976

बी० एच० एम० रोशन सिंह (सं० 1159705 अग्र जे० सी०-84273)
—1 अप्रैल, 1976

बी० एच० एम० एच० शंकर कदम (सं० 1274761 अग्र जे० सी०-
84274)—1 अप्रैल, 1976

बी० एच० एम० एच० अमन सिंह (सं० 1225762 अग्र जे० सी०-
84275)—1 अप्रैल, 1976

बी० एच० एम० महा सिंह (सं० 1155293 अग्र जे० सी०-84276)
—7 अप्रैल, 1976@@

@@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1976 से दी जायेगी।)

भार० एच० एम० कल्याण महादिके (सं० 1274655 अग्र जे० सी०-
84277)—7 अप्रैल, 1976££

££ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1976 से दी जायेगी।)

बी० एच० एम० एम बालकृष्णन नायर (सं० 1155309 अग्र जे० सी०-
84278)—11 अप्रैल, 1976\$\$

\$\$ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1976 से दी जायेगी।)

भार० एच० एम० चन्द्र प्रकाश शर्मा (सं० 1160806 अग्र जे० सी०-
84279)—11 अप्रैल, 1976×××

××× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1976 से दी जायेगी।)

हवलदार धुकल सिंह (सं० 1275164 अग्र जे० सी०-84280)—
13 अप्रैल, 1976++++

++++ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1976 से दी जायेगी।)

भार० एच० एम० जय रामन् एन० (सं० 1143514 अग्र जे० सी०-
84281)—25 अप्रैल, 1976%%%

%%%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1976 से दी जायेगी।)

भार० एच० एम० जसवन्त सिंह (सं० 1275048 अग्र जे० सी०-
84282)—11 अप्रैल, 1976

भार० एच० एम० गोपालकृष्णन, वी० भार० (सं० 1171094 अग्र जे०
सी०-84283)—14 जून, 1976@@@

@@@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 1 मई, 1976 से दी जायेगी।)

बी० एच० एम० गरदेव सिंह (सं० 1143734 अग्र जे० सी०-84284)
—1 जून, 1976

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) मदनलाल प्राशर (सं० 1155202 अग्र जे० सी०-
84285)—5 अप्रैल, 1976**

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1976 से दी जायेगी।)

हवलदार (क्लर्क) पी० बालसुब्रामनियम् (सं० 1143121 अग्र जे०
सी०-84286)—6 अप्रैल, 1976

हवलदार (क्लर्क) के० पी० नारायणन् (सं० 1146938 अग्र जे० सी०-
84287)—1 मई, 1976

नायब सूबेदार (एस० के० टी०) के रैंक में

हवलदार (एस० के० टी०) ज्ञान चन्द (सं० 1146894 अग्र जे० सी०-
84288)—22 मार्च, 1976

हवलदार (एस० के० टी०) सेवा सिंह धोला (सं० 1161345 अग्र जे०
सी०-84289)—22 मार्च, 1976

हवलदार (एस० के० टी०) वासुदेव शर्मा (सं० 1155273 अग्र जे०
सी०-84290)—1 अप्रैल, 1976

हवलदार (एस० के० टी०) भास्करन के० एस० (सं० 1158594 अग्र
जे० सी०-84291)—1 अप्रैल, 1976

हवलदार (एस० के० टी०) प्रभाती लाल यादवा (सं० 1156991 अग्र
जे० सी०-84292)—1 अप्रैल, 1976।

कोर आफ इंजीनियर्स

मद्रास इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार थामोदर भेट्टी रामसामी (1315058-अग्र जे० सी०-84189)
2 मई, 1976।

हवलदार वीरगावेलु नायडु येतिराजुलु (1318827-अग्र जे० सी०-
84190), 5 मई, 1976।

हवलदार वैक शेर भली (1319745-अग्र जे० सी०-84191), 6 मई,
1976।

हवलदार अरजुनन मुद्गोसन (1320710-अग्र जे० सी०-84192),
10 मई, 1976।

हवलदार कल्याण हरीनाथ बाबु (1322223-अग्र जे० सी०-84193),
7 जून, 1976।

हवलदार गोविन्दराजुलु नायडु श्रीनिवास नायडु रामस्वामी (1313640-
अग्र जे० सी०-84194), 25 जून, 1976

हवलदार बैलसेरि प्रभाकरण (1324398-अब जे० सी०-84195),
1 जुलाई, 1976।

हवलदार मुनिस्वामी मुनिस्वामी (1319167-अब जे० सी०-84198),
1 जुलाई, 1976।

हवलदार भाविलवीट्टिल नारायणन नम्बियार (1315983-अब जे० सी०-
84197), 3 जुलाई, 1976।

हवलदार मल्लारि वेनकिटेशन (1314466-अब जे० सी०-84198),
3 जुलाई, 1976।

हवलदार कोटक्काटेरि मरुवोट राघवन नम्बियार (1319780 अब जे०-
सी०-84199), 3 जुलाई, 1976।

हवलदार कोयिल पिल्लै सेल्वराज (1320386 अब जे० सी०-84200),
18 जुलाई, 1976।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता
3 जुलाई, 1976 से दी जाएगी)।

हवलदार तुलसीराम (1314359 अब जे० सी० 84201), 3 जुलाई,
1976।

हवलदार बाल पिणे वीट्टिल बालन (1318393 अब जे० सी०- 84202),
23 जुलाई, 1976।

हवलदार केसवन पुरुसोत्तमन (सं० 1319968 अब जे० सी०-84205),
23 जुलाई, 1976।

नायब सूबेदार (एस० के० टी०) के रैंक में

हवलदार एस० के० टी० कासि मारियप्पन (सं० 1321854 अब जे० सी०-
84204), 1 जुलाई, 1976।

व्यक्ति कोर

नायब रिसालदार के रैंक में

आर० डी० एम० फकीर सिंह (सं० 1025659 अब जे० सी०-84207)
1 फरवरी, 1976।

एस० डी० एम० दलबीर सिंह राभव (सं० 1024511 अब जे० सी०-
84208), 22 मई, 1976।

दफादार शाम लाल बकूर (सं० 1027713 अब जे० सी०-84209),
7 जून, 1976।%

% (नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता
1 जून, 1976 से दी जायेगी)।

दफादार यश करण सिंह (सं० 1024396 अब जे० सी०-84210),
2 जून, 1976।

दफादार हरी सिंह भाटी (सं० 1024191-अब जे० सी०-84211),
17 जुलाई, 1976।@

@ (नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता
4 जून, 1976 से दी जायेगी)।

दफादार राजपाल सिंह (सं० 1026171 अब जे० सी०-84212), 14
जून, 1976।

आर० डी० एम० पी० के० अलगेसन (सं० 1029868 अब जे० सी०-
84213), 15 जून, 1976।

दफादार हमीर सिंह (सं० 1025194 अब जे० सी०-84214), 1 जुलाई,
1976।

एस० डी० एम० मनकुल सिंह (सं० 1026433 अब जे० सी०-84215)
4 अगस्त, 1976।

ई (नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता
1 जुलाई, 1976 से दी जायेगी)।

एम० कुयू० एम० डी० ईश्वर सिंह (सं० 1030963 अब जे० सी० 84216)
10 जुलाई, 1976।

एस० डी० एम० शेर सिंह (सं० 1026795 अब जे० सी०-84217),
12 जुलाई, 1976।

एस० डी० एम० सोहन सिंह (सं० 1026840 अब जे० सी०-84036)
10 जून, 1976।%

% (नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता
4 जून, 1976 से दी जाएगी)।

आर० क्यू० एम० डी० जसवन्त सिंह (सं० 1024806 अब जे० सी०-
84037), 7 जून, 1976।

दफादार अमर शम्भू सेनी (सं० 1026250 अब जे० सी०-84038),
10 जुलाई, 1976।@

@ (नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता
10 जून, 1976 से दी जायेगी)।

दफादार ज्वाला सिंह (सं० 1024252 अब जे० सी०-84039), 1
जुलाई 1976।

एस० डी० एम० अजायब सिंह (सं० 1024975 अब जे० सी०-84040),
12 जुलाई, 1976।

एस० डी० एम० गुरजरण सिंह (सं० 1024263 अब जे० सी०-84041)
17 जुलाई, 1976।

आर० सी० जैन, अवर सचिव

सं० 2909, दिनांक 27 अक्टूबर, 1976 :—राष्ट्रपति निम्नलिखित,
पवोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार पी० सी० नारायणन नायर (जे० सी०-32372), 1 मई,
1976।

नायब सूबेदार पीयार सिंह ठाकुर (जे० सी०-9736), 1 मई, 1976।

नायब सूबेदार के० बासकरन नायर (जे० सी०-19287), 1 मई,
1976।

नायब सूबेदार राधाकान्त सिंह (जे० सी०-21197), 1 मई, 1976

नायब सूबेदार राम सिंह (जे० सी०-8181), 1 मई, 1976।

नायब सूबेदार शम्भू बयाल (जे० सी०-9407), 1 जून, 1976।

नायब सूबेदार लक्ष्मण सिंह (जे० सी०-9520), 1 जुलाई, 1976।

नायब सूबेदार खुशल सिंह (जे० सी०-10306), 1 जुलाई, 1976।

नायब सूबेदार रमेशचन्द्र (जे० सी०-20156), 1 अगस्त, 1976।

इन्फैंट्री

डोगरा रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार इमन राम (जे० सी०-20255), 1 अगस्त 1976

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार राम रथ (जे० सी०-45054), 1 अगस्त, 1976।

नायब सूबेदार भगवान बास (जे० सी०-46291), 1 अगस्त, 1976।

नायब सूबेदार बलवान सिंह (जे० सी० 48559) 1 सितम्बर 1976।

नायब सूबेदार संसार चन्द (जे० सी०-42955), 1 सितम्बर, 1976।

कुमाऊँ रजिमेंट

सूबेदार के रैंक में

सूबेदार नारायण सिंह (जे० सी०-17720), 1 सितम्बर, 1976।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार दीक्षित चन्द (जे० सी०-50703), 1 सितम्बर, 1976।

पैराग्रेट रजिमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार श्री नारायण सिंह विश्वाकरम (जे० सी०-58991), 01 सितम्बर, 1976।

सिख रजिमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार करतार सिंह (जे० सी०-44463), 1 जून, 1976।

नायब सूबेदार सुबरन सिंह (जे० सी०-50321), 1 अगस्त, 1976।

नायब सूबेदार भगवन्त सिंह (जे० सी०-53906), 1 सितम्बर, 1976।

कोर आफ इंजीनियर्स

मद्रास इंजीनियर ग्रुप

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार के० एम० वेलायुधन नायर (जे० सी०-41301) 1 अक्टूबर 1976।

नायब सूबेदार एम० एतुराजु (जे० सी०-25180), 1 अक्टूबर, 1976।

इन्टेलिजेन्स कोर

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार राजेसिंह मेगी (जे० सी०-11153), 1 मार्च, 1976।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सरजीत सिंह (जे० सी०-34555), 1 जनवरी, 1976।

नायब सूबेदार रतन सिंह (जे० सी०-34556), 1 जनवरी, 1976।

नायब सूबेदार परशुराम सिंह (जे० सी०-34560), 13 जनवरी, 1976।

नायब सूबेदार हाकिमसिंह कश्मिर (जे० सी०-34592), 18 जनवरी, 1976।

नायब सूबेदार गुरबचन सिंह (जे० सी०-34593), 1 फरवरी, 1976।

नायब सूबेदार करतल सिंह मान (जे० सी०-34905), 1 मार्च, 1976।

नायब सूबेदार जीवन लाल शाह (जे० सी०-34906), 1 मार्च, 1976।

नायब सूबेदार शमशेर सिंह (जे० सी०-35248), 1 मार्च, 1976।

नायब सूबेदार मान सिंह (जे० सी०-35249), 1 मार्च, 1976।

नायब सूबेदार पृथ्वीसिंह रावत (जे० सी०-35250), 1 अप्रैल, 1976।

नायब सूबेदार भगवान सिंह (जे० सी०-35251), 1 अप्रैल, 1976।

नायब सूबेदार गुरदयाल सिंह (जे० सी०-35252), 1 मई, 1976।

नायब सूबेदार इन्द्राज चौहान (जे० सी०-35253), 1 मई, 1976।

नायब सूबेदार कनवर सिंह (जे० सी०-35254), 1 मई, 1976।

नायब सूबेदार शयलवेस्टर यस हंसडा (जे० सी०-35556), 1 जून, 1976।

नायब सूबेदार मुरलीधर (जे० सी०-35554), 1 जून, 1976।

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

प्रिनेडियर्स

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जे० सी०-38551), 1 दिसम्बर, 1975।

नायब सूबेदार मंगला राम (जे० सी०-59036), 1 जनवरी, 1976।

नायब सूबेदार गोरधन सिंह (जे० सी०-62748), 1 मार्च, 1976।

नायब सूबेदार रामनरेश राय (जे० सी०-40664), 1 जुलाई, 1976।

नायब सूबेदार परसराम (जे० सी०-43915), 1 अगस्त, 1976।

नायब सूबेदार चन्वगी सिंह (जे० सी०-42182), 1 अगस्त, 1976।

नायब सूबेदार हरदयाल सिंह (जे० सी०-46271), 1 सितम्बर, 1976।

शौकत उल्लाह खां, अवर सचिव

सं० 2910, दिनांक 2 नवम्बर, 1976 :- राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :-

नियमित सेना

सैनिक सेवा कोर

सूबेदार मेजर (क्लर्क सामान्य ड्यूटी) के रैंक में

सूबेदार सुधीर रत्नन घोष (जे० सी०-44134), 1 मई, 76।

सूबेदार (क्लर्क सामान्य ड्यूटी) के रैंक में

नायब सूबेदार सतपाल कालिया (जे० सी०-54589), 1 जनवरी, 76।

सैनिक सेवा कोर (मोटर परिवहन)

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार हरी सिंह (जे० सी०-41798), 1 अगस्त, 1976।

सूबेदार रघुनाथ सिंह (जे० सी०-41799), 1 अगस्त, 1976।

सूबेदार मलार्द अरुनाचल हरा हरी पेरूमल पिल्लै (जे० सी०-41800), 1 सितम्बर, 1976।

विशेष सूची

सैनिक सेवा कोर (मोटर परिवहन)

नायब सूबेदार (धर्मशिक्षक) के रैंक में

लान्स नाईक जयन्ती प्रसाद (सं० 6612082 अग्रे जे० सी०-84350), 11 मई, 1976।

नरेश्वर सिंह, अवर सचिव

सं० 2911, दिनांक 2 नवम्बर, 1976 :—राष्ट्रपति साहित्य निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:—

प्रादेशिक सेना

इन्फैन्ट्री

107 इन्फैन्ट्री बटालियन (टी० ए०)

सूबेदार के पद पर

नायब सूबेदार दोजी छिरिंग भूटिया (टी० जे०-1599), 1 जुलाई, 1976।

एस० ए० बाघवानी, हेस्क अधिकारी

सं० 2912, दिनांक 8 सितम्बर, 1976 :—राष्ट्रपति निम्नलिखित नसिंग अफसर को मिलिट्री नसिंग सेवा में 26-6-74 से अपनी अस्थायी कमीशन छोड़ने की अनुमति देते हैं और उनके नाम के आगे वी हुई तारीख से वेतन और पदोन्नति की बरिष्ठता के साथ इसी तारीख से स्थायी कमीशन की स्वीकृति प्रदान करते हैं। देखें ए० आई० 274/50:—

नियमित सेना

मिलिट्री नसिंग सेवा

लैफ्टिनेंट के रूप में

कुमारी कोडाकोई कालायथ सरस्वती एन० आर०-13831, 6-11-65

कुमारी थन्गावेलु सरस्वती एन० आर०-13849, 7-11-65।

कुमारी रीतु माया राये -एन० आर०-14038-7-3-1966

त्रिलोक चन्द भाटिया, अवर सचिव

(सैनिक इंजीनियर सेवायें)

सं० 2913, दिनांक 2 नवम्बर, 1976 :—निम्नलिखित अधिकारी ने उनके नाम के सामने लिखित तिथि से सेवा से त्याग पत्र दिया :—

श्री अमरपाल सिंह सेठी अस्थायी ए० ई० ई० (बी० आर०) 31 अगस्त, 76 अपराह्न।

सं० 2914, दिनांक 2 नवम्बर, 1976 :—निम्नलिखित अधिकारी ने उनके नाम के सामने लिखित तिथि से सेवा से त्याग पत्र दिया :—

श्री ई० बी० सिन्हा अस्थायी आर्बोटेक्ट, (30 सितम्बर, 1976 अपराह्न)

एन० एन० मोहन्ता, अवर सचिव

सं० 2915, दिनांक 20 अक्टूबर, 1976 :—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को अधिवर्ष मायु प्राप्त करने पर सेना से सेवा निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी मायोग

ले० कर्नल (विंग कमाण्डर) एस० एम० कृष्णन (एम० आर०-01086 इन्फैन्ट्री) (3765) सैनिक डाकटरी कोर -30 जून, 1976 (अपराह्न)

त्रिलोक चन्द भाटिया, अवर सचिव

नियमित सेना ए० घो० सी०

सं० 2916, दिनांक 2 नवम्बर, 1976 :—निम्नलिखित अधिकारी उसके नाम के सामने लिखित तिथि से सेवा से निवृत्त हुए :—

श्री हरबन्स लाल सणु

अस्थायी

आर्बोटेक्ट अधिकारी सिविलियन (प्रशासन) -26 सितम्बर, 1976 (अपराह्न)

श्री भवतारु सिंह बखशी

अस्थायी

आर्बोटेक्ट अधिकारी सिविलियन भंडार)-30 सितम्बर, 1976 (अपराह्न)

श्री सन्ता सिंह

स्थायी।

सिविलियन सहायक सुरक्षा अधिकारी I-30 सितम्बर, 1976 (अपराह्न)।

(सैनिक इंजीनियर सेवायें)

सं० 2917, दिनांक 2 नवम्बर, 1976 :—निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने लिखित तिथि से सेवा से निवृत्त हुए :—

श्री एम० एन० धवन एस० बी० एम० घो० -30 सितम्बर, 76 अपराह्न

(नियमित सेना ए० घो० सी०)

सं० 2918, दिनांक 2 नवम्बर, 1976 :—निम्नलिखित अधिकारी की उसके नाम के सामने लिखित तिथि को मृत्यु हुई :—

श्री इ० जे० त्रितीया स्थायी अस्थायी सहायक सुरक्षा अधिकारी-
28 जुलाई, 1976।

एन० एन० मोहन्ता, अवर सचिव

गुडि पत्र

सं० 2919, दिनांक 2 नवम्बर, 1976 :—31 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 1823 तारीख 10-जुलाई, 1976 में शीर्षक 'नियमित सेना'; उपशीर्षक 'इन्फैन्ट्री' और 'राजपूताना राष्ट्रफोर्स' के अन्तर्गत 'सूबेदार (कलर्क) के रैंक में' के नीचे :—

'नायब सूबेदार कलर्क शय्यद तसव्वर हुसैन जिबी (जे० सी०-53295), 1 जून, 1976' के स्थान पर 'नायब सूबेदार कलर्क शय्यद तसव्वर हुसैन रिजवी (जे० सी०-53295), 1 जून, 1976 पढ़ा जाए।

शोकत उल्लाह खी, अवर सचिव

नौसेना ब्रांच

नौसेना मुख्यालय

सं० 2920, दिनांक 29 अक्टूबर, 1976 :—राष्ट्रपति, श्री तापेश्वर नाथ, स्थायी सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर को सशस्त्र सेना मुख्यालय की सिविल सेवा में 11 अक्टूबर, 1976 से अगले आदेशों तक, श्री घो० पी० सुब, सिविलियन स्टाफ अफसर जिन्हें 82 दिन का अवकाश प्रदान किया गया है, के स्थान पर स्थानापन्न सिविलियन स्टाफ अफसर के रूप में पदोन्नत करते हैं।

सं० 2921, दिनांक 29 अक्टूबर, 1976 :—राष्ट्रपति, श्री एस० एन० पुरी स्थायी सहायक को श्री हरबंस लाल जिन्हें अवकाश प्रदान किया गया है के स्थान पर 19 जुलाई, 1976 से 28 सितम्बर, 1976 तक स्थानापन्न सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी के रूप में पदोन्नत करते हैं।

सं० 2922, दिनांक 29 अक्टूबर, 1976 :—राष्ट्रपति, श्री एल० एन० निगम, स्थायी सहायक को श्री पी० के० पिल्लै जिन्हें अवकाश प्रदान किया गया है के स्थान पर 10 अगस्त, 1976 से 29 सितम्बर, 1976 तक स्थानापन्न सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी के रूप में पदोन्नत करते हैं।

जी० श्रीनिवासन
सहायक मुख्य प्रशासन अधिकारी (ए०)

नौसेना ब्रांच

सं० 2923, दिनांक 3 नवम्बर, 1976—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

भारतीय नौसेना
स्थायी कमीशन
इक्लेक्यूटिव ब्रांच

सब-लेफ्टिनेंट की लेफ्टिनेंट के पद पर

आर० कौशल (01403 एन), 1-9-76 से —नौसेना विनियमावली भाग III सांविधिक का विनियम 121 देखें।

अनिल कुमार (01433 एफ), के० सी० सूद (01429 वाई), श्रीर जे० ए० सुराश्री (01430 जेड) 16-9-76—नौसेना विनियमावली भाग 3 सांविधिक का विनियम 121 देखें।

एस० खेड़ा (01467 एच) और एफ० ए० रोड्रिग्स (01448 आर), 16-9-1976—नौसेना विनियमावली भाग 3 सांविधिक का विनियम 121 देखें।

इंजीनियरिंग ब्रांच

सब-लेफ्टिनेंट की लेफ्टिनेंट के पद पर

नरेन्द्र सिंह (40548 बी), 25-9-76—नौसेना विनियमावली भाग 3 सांविधिक का विनियम 124 देखें।

इलेक्ट्रिकल ब्रांच

सब-लेफ्टिनेंट की लेफ्टिनेंट के पद पर

डी० जी० चिरानिया (50437 बी), 26-9-1976—नौसेना विनियमावली भाग 3 सांविधिक का विनियम 126 देखें।

स्पेशल ड्यूटीज लिस्ट

कार्य० सब-लेफ्टिनेंट (एस० डी० एम० ई०) की सब-लेफ्टिनेंट (एस० डी० एम० ई०) के पद पर

के० एस० रावत (85068 के), 1-4-1976 से 1-4-1975 की वरिष्ठता (केवल पदोन्नति के लिये) सहित—नौसेना अनुदेश 32/67 देखें।

मलकीत सिंह, अवर सचिव

सं० 2924, दिनांक 2 नवम्बर, 1976—निम्नलिखित अफसर ने अपने नाम के समाने दी गई तारीख से सेवा से त्याग पत्र दिया:

श्री एम० वाई० ए० काजी
स्थायी वरिष्ठ फोरमैन/
स्थानापन्न सिविलियन 1 अप्रैल, 1976
तकनीकी सहायक (इंजीनियरी) (पूर्वाह्न)

एन० एन० मोहन्ता, अवर सचिव

वायुसेना मुख्यालय

सं० 2925, दिनांक 25 नवम्बर, 1976—श्री सीताराम, सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी, 18-8-1976 की अधिवाधिकी की प्रायु में पहुँचने पर अर्थात् 58 वर्ष के हो जाने पर, 31 अगस्त 1976 (अपरार्ह्न) से सेवा निवृत्त हुए तथा पहली सितम्बर, 1976 से उन्हें पेंशन स्थापना में स्थानान्तरित किया गया।

जी० श्रीनिवासन,
सहायक मुख्य प्रशासन अधिकारी

(वायु शाखा)

सं० 2926, दिनांक 15 अक्टूबर, 1976—राष्ट्रपति, निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं:—

भारतीय वायु सेना
परिभारिकी शाखा
विंग कमांडर भूप कैप्टन के रूप में

बी० पी० सिंह (3534)—01 अप्रैल, 1976

प्रशासन शाखा

स्वाइज़न लीडर, विंग कमांडर के रूप में

एम० एम० आर० जोहर (4744); बी० चौधरी (4759); सी० एल० ए० मलिक (4833); के० स्वामीनाथन (5084); एम० सी० दुर्गापाल (4914)—01 अप्रैल, 1976।

वै० इं० (यांत्रिक) शाखा

स्वाइज़न लीडर, विंग कमांडर के रूप में

सुष्मा सिंह (5367), एस० एल० रेलन (5493)—01 अप्रैल, 1976

वै० इं० (इलेक्ट्रानिकी) शाखा

एम० के० खिबानी, वि० से० मे० (5160), एम० एस० विशानोई (5159), एस० एस० सचदेव (5161), बी० एस० हतनगडी, वि० से० मे० (5492), ए० पी० बेंकटरंगन (5249), आर० के० महाजन (5251)—01 अप्रैल, 1976।

के० एन० एम० नारायणन (5351), ए० के० दत्ता (5352)—01 अक्टूबर, 1975।

सं० 2927, दिनांक 21 अक्टूबर, 1976—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:

भारतीय वायुसेना

उड़ान (पायलट) शाखा

भूप कैप्टन, कार्यकारी एयर कमांडर के रूप में

आर० ए० वेयर, वीरचक्र, वा० से० मे० (3881)—6 जनवरी, 1976 से।

जे० एस० बोहरा (3943)—01 मार्च, 1976।

एम० एम० सिंह, आ० वि० से० मे० वीरचक्र (4023)—19 मार्च, 1976।

वै० इं० (यांत्रिक) शाखा

भूप कैप्टन, कार्यकारी एयर कमांडर के रूप में

एस० एस० सहगल (3777)—13 अप्रैल, 1976

वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिकी) शाखा

विंग कमांडर, कार्यकारी भूप कैप्टन के रूप में

के० एस० भाटिया, आ० वि० से० मे० (4139)—2 फरवरी, 1976 से।

उड़ान (पायलट) शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट मूल स्वाइज़न लीडर के रूप में

एस० एन० गर्ग (9017)—25 दिसम्बर, 1975।

बी० बी० सोनी (9392); के० एम० एस० तोमर (9393); बी० अरोड़ा (9394), एन० रंगाचारी (9396); हरिन्द्र पाल सिंह (9397); एन० सैथिलनाथन (9401); कुलदीप नारायण (9405); वी० के० वीर (9406); जी० एस० मोहर (9407); एच० एस० गिल (9408);

के० के० केरपाल (9409); के० पी० कार (9411); आर० के० पुरी (9415); ए० ए० सीदाना (9418); आर० पी० सैनी (9419); ए० टी० सिगराजा (9425); बी० जी० ए० संवु (9427) सी० जैड० ए० संवु (9428); ए० पी० मलकानी (9429); आर० ए० टंडन (9432); ए० डी० मंजरेकर (9433); के० ए० ए० राना (9437); नरेश चन्द्र (9438); ए० मुखर्जी (9439); प्रमोद साहनी (9440); ए० पी० ए० पन्नु (9443); ए० के० रस्तोगी (9446); ए० डी० भीगारकर (9446); जगदीश सिंह (9450); जे० ए० राहिल (9452); ए० के० अग्रवाल (9453); डी० के० कपूर (9456); राम सिंह (9458); डी० ए० ब्राह्मणालिया (9460); ए० ए० सरदेसाई (9463); सी० ए० भसीन (9465); ए० ए० त्यागी (9467); पी० विजय (9468) जी० ए० गिल (9470); श्री० ए० सरीन (9473); टी० जयरामन (9474); ए० जी० प्रभु (9478); ए० के० सिंह (9481); वाई० तलवार (9482); जे० पी० तांक (9486); बी० ए० सिडे (9487); ए० ए० सेखों (9512); ए० मितावा (9513); आर० ए० ब्रेवी (9514); नरिन्द्र सिंह (9516); सी० मेथ्यू (9518); डी० ए० चौहान (9520); ए० के० सिंह (9521); ए० ए० कपूर (9522); वी० ए० जसपाल (9523); आर० वी० सिंह (9524); वी० के० ए० गुप्ता (9525); ए० ए० विक (9526); ए० के० सखदेव (9528); ए० ए० बाजवा (9530); आर० ए० हीर मुसजी (9531); आर० के० विष्णोई (9533); ए० ए० मालही (9534); अमित वासेन (9543); पी० आर० पोटनिस (9544); ए० पी० ए० राघव (9547); ए० पी० ए० लाम्बा (9548); बखशीश सिंह (9550); हरजीत सिंह (9552); ए० के० शर्मा (9553); जे० पी० सकलानी (9554); वी० संकरी (9555); पी० के० गुप्ता (9556); ए० के० बावल (9560); ई० जे० रोजिज (9564); ए० पी० फीब्रेड (9566); पी० जे० सिंह (9567); ए० पाल (9570); ए० जैड० सिद्दीकी (9571); ए० ए० नंदा (9445); आर० आई० सयाल (9462); बलदेव सिंह (9477); ए० आर० पेजावर (9480); श्री० पी० शुगल (9532); डी० सी० भारद्वाज (9545); ए० के० आनन्द (9572) ए० सी० माथुर (9455); तेजिन्दर सिंह (9535); डी० डी० सिंह (9476); ए० सी० वर्मा (9541); तथा वी० ए० समसी (9472)—16 मई, 1976 ।

उड़ान (नेविगेटर) शाखा

पी० ए० आहूजा (9489); तरलोचन सिंह (9491); ए० डी० सूद (9493); राजीव लोचन (9494); के० ए० परवेशी (9495); ए० के० सैनी (9496); आर० ए० चौहान (9498); ए० सी० महाजम (9499); ए० ए० बोहानियन (9500); पी० पी० कलकर्णी (9503); जे० जे० सिंह (9504); डी० ए० भुल्लर (9506); ए० ए० देशपांडे (9507); ए० पी० गौड़ (9508); ए० के० ककड़ (9509); वी० के० चावला (9511); तथा ए० के० राय (9502)—16 मई, 1976 ।

उड़ान (पायलट) शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट मूल स्वभाइन लीडर के रूप में

डी० यादव (8991)—30 जून, 1976

उड़ान (नेविगेटर) शाखा

के० के० कौशल (9573)—4 जून, 1976 ।

आर० के० मैनी (9127)—24 जनवरी, 1976

वै० ई० (यांत्रिक) शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट, मूल स्वभाइन लीडर के रूप में

ए० आणुसोष (8277); के० राजवान (8005); फिलिप जॉर्ज (9603); ए० पी० सिंह (8229); ए० डी० वल्ल (9609); ए० के० श्रोवर (8017); जी० नायर (9610); ए० ए० गणेश (8213)

श्री० पी० सूद (7989); यू० वी० भट्ट (8216); बी० पी० सिंह (8008) ए० वी० कामथ (8292); आर० ए० मेहता (9614); ए० वी० महादेवन (9616); जे० ए० गक्सेना (8003); रमेश कुमार (7993); वी० ए० बंसल (7994); ए० ए० के० गेट्टी (7992); डी० ए० हजूरिया (8230); बी० ए० सीहोता (8232); आर० पी० मेहता (8221); आर० ए० सदयारा (8814); जी० ए० संघू (8228) ए० आर० रेनाल्ड (8813); वी० सिन्हा (9615); जी० पी० ए० श्रेवाल (8227); ए० यू० स्वविद्री (8811)—3 जुलाई, 1976 ।

आर० के० सेठी (8007) तथा जे० ए० कालरा (7999)—17 जुलाई, 1976 ।

वै० ई० (विद्युत) शाखा

आर० सी० सिंह (9598); ए० राजगोपालन (8806); के० ए० सेहनपाल (8808); पी० ए० तलवाड़ (9607); ए० सोमसेखरराव (8809); ए० बेंकटसम (8810); ए० सी० भाटिया (8807); वी० ए० मल्ल (9602); ए० के० बखशी (9596); ए० ए० वर्मा (9597); ए० डी० कुमार (9599); ए० आर० के० परमहंस (7753); ए० सी० जैन (7757); बलवंत सिंह (9600); आर० वी० असतकर (8219); के० श्री० जॉर्ज (9604); सी० आर० अय्यर (8804); ए० पी० कृष्णामूर्थी (9605); डी० ए० सगू (8805); सुखदेवराज (9608) ए० कल्याणरामन (7949); पी० आर० पांडे (8234); उमाशंकर सूरे (8223); मृत्युंजय सिंह (8294); ए० ए० गौयल (7966); ए० मसिलमणी (9612); ए० सी० ज्योतिपुंज (8211); ए० ए० सेठी (9613); ए० जे० पिल्ले (8802); हकबाल सिंह (8801); जे० के० जैन (7963); आर० के० हसतीर (8233); पी० ए० शोकी (8800); ए० जी० वेशमुख (8803) तथा ए० जी० राव (8799)—3 जुलाई, 1976 ।

फ्लाइट अफसर, मूल फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रूप में

परिभारिकी शाखा

जी० ए० बाजवा (12350)—27 जून, 1976 ।

सं० 2928, दिनांक 25 अक्टूबर, 1976—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसर को, उनकी अपनी ही प्रार्थना पर, पहली अप्रैल, 1976 से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं। उनके स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होने पर, उन्हें उनके नाम के सामने विख्याई गई अवधि के लिये, नियमित वायुसेना रिजर्व से स्थानान्तरित किया जाता है :—

भारतीय वायुसेना

उड़ान (पायलट) शाखा

एयर कमांडोर पी० ए० विलसन (3590)—01 अप्रैल, 1976 से 31 मार्च, 1981 तक ।

सं० 2929, दिनांक 26 अक्टूबर, 1976—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसर को, उनकी अपनी ही प्रार्थना पर सेवामुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

भारतीय वायुसेना

उड़ान (पायलट) शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट आर० कौल (10595)—2 जुलाई, 1976 ।

फ्लाइट लेफ्टिनेंट ए० ए० आर० शिरके (10492)—21 अगस्त, 1976 ।

आर० के० धीर, प्रवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 27th November 1976

No. 2884, dated 13th October 1976.—The President is pleased to appoint Shri J H Narayan, an officer of the IAS, borne on the cadre of Andhra Pradesh, as Under Secy, Min of Def w.e.f. the forenoon of 11th Oct 1976.

No. 2885, dated 14th October 1976.—The President is pleased to appoint Sh. HR Chopra, a pmt Gde I officer of the CSS as under, consequent on grant of extension of his service :—

- (i) Private Secretary in the 'Special Staff' in the office of the former Raksha Mantri for the period from 1st Dec 1975 to 24th Dec 1975.
- (ii) Private Secretary to Raksha Utpadan Mantri from 25th Dec 1975 to 30th June 1977 or till the services are required by the Minister, whichever is earlier.

S N ROY, Under Secy.

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT
ORGANISATION
DEFENCE SCIENCE SERVICE

No. 2886, dated 27th October 1976.—Consequent on acceptance of his resignation Shri R. N. Tandon tempy JSO, Defence Research and Development Laboratory, Hyderabad relinquished the charge of the post—28th June 1976 (AN).

V. R. RAMASWAMY, Dy Dir.

DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION

No. 2887, dated 11th October 1976.—The President is pleased to appoint the undermentioned officers in a subs capacity to the grade of Technical Officer in the Directorate of Production and Inspection (Naval) and Directorate of Warship Projects cadre :—

Shri T N GHABRU, offg Senior Technical Officer, 16th Apr 1968.

Shri D D GANOTRA, offg Senior Technical Officer, 22nd Apr 1968.

Shri V B SINGH, pmt Junior Technical Officer/offg Senior Technical Officer, 1st July 1971.

Shri J M WASDEV, Quasi-pmt Technical Officer/offg Senior Technical Officer, 1st July 1971.

Shri V V PRADHAN, pmt Junior Technical Officer/offg Senior Technical Officer, 1st July 1971.

No. 2888, dated 29th October 1976.—The President is pleased to make the following promotions/appointments :—

DEFENCE SCIENCE SERVICE

Shri Anand SWARUP, pmt, Principal Scientific Officer, Directorate of Production & Inspection (Electronics), New Delhi, to be offg. Dy. Chief Scientific Officer in the same Directorate, 4th Sep 1976 (FN).

Shri M. UNNISHANKARAN, tempy. J.S.O. (pmt. J.S.A. Gd. I), Controllerate of Inspection (Weapons), Jabalpur, to be offg. SSO Gde II in the same estab, 21st July 1976 (FN).

Shri P. R. GAYEN, tempy. J.S.O. (pmt. J.S.A. Gr. I), Inspectorate of Metals, Katni, to be offg. SSO Gde II in the same estab., 16th Aug 1976 (FN).

Shri S. C. JAIN, tempy. J.S.O. (pmt. Foreman), Controllerate of Inspection (Instruments), Dehra Dun, to be offg SSO Gde II in the same estab., 28th Aug 1976 (FN).

Shri N. L. KRISHNAMURTHY, tempy. J.S.O. (pmt. Foreman), Inspectorate of Armaments, Varanasi, to be offg. SSO Gde II, Inspectorate of Armaments, Tiruchirappalli, 13th Sep 1976 (FN).

Shri H. MURALI MOHAN, Q.P. J.S.O. Inspectorate of Armaments, Secunderabad, to be offg. SSO Gde II, Inspectorate of Armaments, Khamaria, 15th Sep 1976 (FN).

Shri K. P. RAO, Q.P. J.S.O. Inspectorate of Armaments, Secunderabad, to be offg. SSO Gde II, Inspectorate of Armaments, Calcutta, 16th Sep 1976 (FN).

Shri P. K. L. R. NIMONKAR, Q.P. J.S.O. Inspectorate of Metals, Ambernath, to be offg. SSO Gde II, Inspectorate of Metals, Ishapore, 27th Sep 1976 (FN).

Shri Daljit SINGH, tempy. J.S.O. Inspectorate of Small Arms, Kanpur, to be tempy. SSO Gde II, in the same establishment on probn for a period of two years, 5th Oct 1976 (FN).

Shri Syamal CHATTOPADHYAY, to be tempy. JSO, Controllerate of Inspection (Military Explosives), Kirkee, on probn for a period of two years, 14th Sep 1976 (FN).

Shri M. K. SEN, pmt. Principal Scientific Officer, Controllerate of Inspection (Metals), Ishapore, to be offg Dy. Chief Scientific Officer, Inspectorate of Metals, Ishapore, 13th Sep 1976 (FN).

Shri C. RAJENDRAN, Q.P.I.S.O. Inspectorate of Weapons, Ambernath, to be offg. S.S.O. Gr II, Controllerate of Inspection (Weapons), Jabalpur, 4th Oct 1976 (FN).

Shri K. BHARGAVA, QP J.S.O. Inspectorate of Armaments, Chandrapur, to be offg. S.S.O. Gr. II, Controllerate of Inspection (Weapons), Jabalpur, 8th Oct 1976 (FN).

Shri Sanjeev KAPUR, to be tempy. J.S.O. Controllerate of Inspection (Military Explosives), Kirkee, on probn for a period of two years, 19th Oct 1976 (FN).

No. 2889, dated 30th October, 1976.—The President is pleased to make the following promotion :—

DEFENCE SCIENCE SERVICE

Shri G. Kameshwar RAO, pmt Principal Scientific Officer, Chief Inspectorate of Materials, KANPUR to be offg. Dy. Chief Scientific Officer in the same establishment, 31st Aug 1976 (FN).

No. 2890, dated 1st November 1976.—The undermentioned officer retired from service wef the date shown :—

Shri G. N. CHANSARKAR, temp. Senior Administrative Officer Gde II (pmt. Administrative Officer), Inspectorate of Armaments, Kirkee, 30th Sep 1976 (AN).

N K SENGUPTA, Dy Dir (Admin).

DIRECTORATE OF TECHNICAL DEVELOPMENT AND PRODUCTION (AIR)

No. 2891, dated 2nd November 1976.—The President is pleased to make the following appointment :—

DEFENCE SCIENCE SERVICE

Shri Ramesh Chander Wahi to be tempy. SSO Gde II (Inspecting Officer) in OCRI DTD&P (Air), Hyderabad, on probn. for a period of two years, w.e.f. 19th Oct 1976 (F/N).

T. V. SANKARAN, Dir, TD&P (AIR).

NATIONAL CADET CORPS

No. 2892, dated 1st November 1976.—The President is pleased to accept the resignation of the following officers from the NCC wef the date shown against their names :—

Senior Division (Army Wing)

Maharashtra

Capt. M. V. Gokhale (NCC/131), 16th Jul. 1974.

Delhi

Lt. P. L. Bajaj (NCC/5608), 30th Oct. 1975.

Bihar

Lt. A. P. Singh (NCC/3595), 3rd Apr. 1976.

No. 2893, dated 1st November 1976.—The President is pleased to accept the resignation of the following officers from the NCC wef 8th Jul. 1976. The period shown in brackets against their names shall not be counted for purposes of seniority or promotion or any other benefits in the NCC :—

*Senior Division (Army Wing)**Maharashtra*

Lt. P. E. Bharadi (NCC/954), (1st Apr 1975 to 7th Jul. 1976).

Tamil Nadu

Capt. A. E. Armugam (NCC/14103), (1st Jul. 1976 to 7th Jul. 1976).

Madhya Pradesh

Capt. Inderjeet Mahajan (NCC/2338), (1st Nov. 1975 to 7th July 1976).

West Bengal

Capt. A. K. Choudhuri (NCC/3089), (12th Mar 1974 to 7th Jul. 1976).

Uttar Pradesh

Lt. M. S. Siddiqi (NCC/13631), (11th Jun. 1975 to 7th Jul. 1976).

Karnataka

Lt. S. R. Naik (NCC/7560), (1st Apr. 1976 to 7th Jul. 1976).

Gujarat

Lt. N. J. Tindwani (NCC/10073), (22nd Apr 1975 to 7th Jul. 1976).

Andhra Pradesh

Lt. V. N. Murty (NCC/8778), (29th Feb. 1976 to 7th Jul. 1976).

No. 2894, dated 1st November 1976.—The President is pleased to discharge the following officers from the NCC wef the dates shown against their names :—

*Senior Division (Army Wing)**Maharashtra*

2/Lt. J. C. Bagga (NCC/755), 1st Apr. 1968.

Madhya Pradesh

Lt. R. K. Shukul (NCC/2346), 28th Jul. 1973.

Uttar Pradesh

Capt. B. B. Singh (NCC/5106), 13th Jul. 1976.

Lt. N. L. Sharma (NCC/5319), 16th Jul. 1975.

Capt. I. A. Khan (NCC/4249), 10th Jul. 1976.

Lt. O. P. Soti (NCC/5344), 1st Aug. 1976.

Maj. J. P. Agarwal (NCC/4346), 2nd Aug. 1976.

Lt. G. S. Lavania (NCC/4697), 1st Jul. 1972.

Delhi

Lt. R. K. Rastogi (NCC/5542), 22nd Jan. 1976.

Haryana

Capt. B. M. Sharma (NCC/6031), 5th Jun. 1976.

Karnataka

Capt. B. L. C. Rajan (NCC/7055), 26th Aug. 1976.

3—344GI/76

Kerala

Capt. T. A. Varghese (NCC/7968), 7th Jul 1976.

Capt. V. A. Chacko (NCC/7680), 26th Aug 1976.

Andhra Pradesh

Lt G. S. P. Rao (NCC/8772), 15th Jul. 1976.

Maj K. Satyanarayana (NCC/8253), 1st Jul. 1976.

Rajasthan

Capt. K. N. Gupta (NCC/9161), 20th Jun. 1976.

2/Lt. B. S. Paliwal (NCC/9530), 14th Sep. 1974.

Maharashtra

Capt. T. J. Pawar (NCC/306), 1st Jul. 1976.

Tamil Nadu

Maj. K. Pandurangam (NCC/1154), 2nd Aug 1975.

West Bengal

Maj. S. Das (NCC/2541), 1st Jul. 1976.

Uttar Pradesh

Capt. K. B. Chaturvedi (NCC/4799), 20th Apr. 1975.

Capt. B. S. Sharma (NCC/4340), 1st Mar 1976.

Maj. B. B. S. Bisen (NCC/4156), 1st Jan. 1974.

Capt. S. Singh (NCC/4646), 10th Feb. 1976.

Chandigarh

Maj. M. M. Singh (NCC/5818), 25th May, 1976.

Karnataka

Capt. G. Badrinath (NCC/7151), 5th Mar. 1976.

Kerala

Capt. P. Radhakrishnan (NCC/7843), 15th May, 1976.

Andhra Pradesh

Maj. A. V. Rao (NCC/8325), 1st Jul. 1976.

*Senior Division (Naval Wing)**Maharashtra*

Lt. R. D. Chawathe (NCCN/188), 3rd Jan 1976.

Andhra Pradesh

Sub Lt. B. Rajasimha (NCCN/11017), 11th Jun. 1976.

No. 2895, dated 1st November 1976.—The President is pleased to discharge the following officers from the NCC wef 8th Jul. 1976. The period shown in brackets against their names shall not be counted for the purposes of seniority or promotion or any other benefits in the NCC :—

*Senior Division (Army Wing)**Maharashtra*

Capt. S. N. Chauhan (NCC/335), (1st Mar 1974 to 7th Jul. 1976).

Lt. D. K. Patil (NCC/807), (1st Mar 1969 to 7th Jul 1976).

Tamil Nadu

Capt. M. Natasan (NCC/1602), (23rd Sep. 1974 to 7th Jul. 1976).

Madhya Pradesh

Capt. Zile Singh (NCC/1908), (1st Aug 1968 to 7th Jul. 1976).

Uttar Pradesh

Lt. R. R. Singh (NCC/5334), (1st Sep 1974 to 7th Jul 1976).

2/Lt S. P. Batra (NCC/13787), (26th Jun. 1975 to 7th Jul 1976).

Lt. R. C. Srivastava (NCC/5368), (3rd Sep. 1973 to 7th Jul 1976).

Lt. P. P. Singh (NCC/5140), (1st Nov. 1974 to 7th Jul 1976).

Lt. B. D. Vaish (NCC/5037), (1st Nov 1973 to 7th Jul 1976).

Capt. J. A. Nathan (NCC/5021), (1st Jul. 1974 to 7th Jul 1976).

Capt. S. R. Singh (NCC/4895), (1st Jul. 1974 to 7th Jul 1976).

Lt. S. P. Agarwal (NCC/5485), (14th Aug. 1975 to 7th Jul 1976).

Delhi

Capt. V. P. Saini (NCC/4668), (20th Dec 1974 to 7th Jul 1976).

Gujarat

Capt. K. V. Naik (NCC/9991), (22nd Jun 1975 to 7th Jul 1976).

CORRIGENDUM

No. 2896, dated 19th October 1976.—In M of D Notn No. 2707, dated 29th Sep 1975, published in the G of I dated 1st Nov 1975, under heading 'Junior Division (Army Wing)', sub-heading 'Third Officers to be Second Officers' and below 'Maharashtra' for "NS BHAU (NCC/81594)" read "SB NALAWADE (NCC/81594)".

S. P. GOEL, Dir. of Pers.

No. 2897, dated 2nd November 1976.—The undermentioned is granted the hony rank of Col in the NCC and is appointed as Hony Colonel Commandant NCC in Indian Institute of Technology, KANPUR for the period of his appointment as Director :—

Dr. AMITABHA BHATTACHARYYA, BME (Hons), M.F., M.Sc. (Illinois), Ph.D., Director, Indian Institute of Technology, KANPUR—2nd May 1976.

MAHENDRA SINGH, Dir. (T).

(ARMY BRANCH)

No. 2898, dated 9th November 1976.—The President is pleased to make the following appointment :—

PERSONAL STAFF

Lt Col P. B. Guriar (IC 7051) Engineers to be Deputy Military Secretary to the President *vice* Lt Col N. S. Uthya (IC 5391) Para vacated—1st Nov 1976.

R. C. JAIN, Under Secy.

No. 2899, dated 2nd November 1976.—The President is pleased to appoint Lt.Gen. G. L. Chopra (IC 963) as Colonel Commandant of the Army Ordnance Corps wef 18th Oct., 1976.

No. 2900, dated 2nd November 1976.—The President is pleased to appoint Maj.-Gen. R. T. Morlin (JC 4045), A.V.S.M., as Colonel of the Sikh Regiment wef 18th Oct. 1976.

No. 2901, dated 2nd November 1976.—The President is pleased to appoint Maj.-Gen. B. D. Kale (IC 4697) as Colonel of 4th Gorkha Rifles wef 18th Oct., 1976.

HAR MANDER SINGH, Jt Secy.

No. 2902, dated 23rd October 1976.—The undermentioned officer is granted the hony rank of Col with effect on pay and pension with effect from 23rd Oct. 1976. Naval and Air Attaché to the Consulate of India at AUSTRALIA, CANBERRA :—

Lt Col JODAI SINGH (IC 8801) GADW RIF—25th Sep 1976.

No. 2903, dated 29th October 1976.—The undermentioned officer is granted the rank of Lt Col with effect on *nim vide* Min of Def Notn No. 1519, dated 26th May 1973 published on 16th Jan 1974 :—

Lt Col B C Jishi (IC 7211), 61 CAV—05th Oct 1976.

T. JACOB Dy. Secy.

No. 2904, dated 18th October 1976.—The President is pleased to confirm the undermentioned officers consequent on the completion of the probationary period :—

REGULAR ARMY**ARMY DENTAL CORPS****(PERMANENT COMMISSION)**

Capt B. P. KHATTAK DR-10264D—23rd June 1976.

Capt ANIL KOMAR DR-10265X—29th June 1974.

Capt S. K. AGNIHOTRI DR-10265A—29th June 1974.

Capt PARAMJIT SINGH DR-10267H—29th June 1974.

Capt V. P. CHATTERJAI DR-10269L—29th June 1974.

T. C. BHATTIA, Under Secy.

No. 2905, dated 25th October 1976.—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY**(PERMANENT COMMISSION)****BRIG TO BE MAJ GEN**

DARYAO SINGH (M70042M) AMC PC—26th Oct 1975 (with effect without effect on pay and pension from 1st Jan 1976).

RAJENDRA LAL, Jt Secy.

No. 2906, dated 28th October 1976.—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY**(PERMANENT COMMISSION)****Capt to be Maj**

G. B. Kulkarni (IC 14306), Engineers, 19th Dec 1973.

M. L. S. Patil (IC 12467) FMT, 18th Dec 1973.

K. Dasgupta (IC 14304) FMT, 19th Dec 1973.

G. R. NAYAR (IC 8492) Pioneer Corps, 16th Oct 1973.

S. R. Chhabra (IC 12317) A.O.C., 21st Oct 1975.

Mohinder Singh (IC 13 86), S. I. Column (IC 13952), H. S. Mangat (IC 13962), Janki Singh (IC 14254), Inf., 11th Dec 1975.

Nand Kishore (IC 13790) Art. —11th March 1976.

R. C. Jolly (IC 12659), Engineer—11th June 1976.

R. K. Mishra (IC 13511), L.M.C.—11th June 1976.

Rajinder Singh (IC 15000), R. Under Kumar (IC 15002), M. C. Sharma (IC 15004), M. K. Khanna (IC 15005), S. S. Singh (IC 15006), V. K. (IC 15012), Vishwkar Prasad Singh (IC 15013), Krishna Kumar Lamba (IC 15022), Prakash Singh (IC 15025), D. C. K. Kumar San (IC 15028), B. K. Keshri (IC 15029), D. C. Chander (IC 15030),

S. K. Bhatia (IC 15031), T. Prasad Kumar Singh (IC 15032), M. S. Venkateshwar (IC 15033), Rakesh Bhargava (IC 15037), Ashok Kumar (IC 15038), M. K. Pradhan (IC 15040), V. K. Das (IC 15041), Nandini Singh (IC 15044), A. C. Anand (IC 15045), Ramchandran Kameswara Kumar (IC 15046), B.INDER SINGH (IC 15049), S. K. Nanga (IC 15051), V. K. Singh (IC 15053), Datta Singh Bahra (IC 15058), A. B. Srinivasan (IC 15059), E. R. Mohan (IC 15057), K. P. S. (IC 15062), Anand Singh (IC 15063), V. K. Chandra (IC 15065), V. K. Chandra (IC 15066), S. S. Gupta (IC 15067), M. S. (IC 15068), Kamal B. Singh (IC 15069), G. S. (IC 15072), A. P. Subramanian (IC 15073), S. S. (IC 15074), A. S. Nagshirao (IC 15075), M. S. (IC 15076), S. S. (IC 15077), N. P. (IC 15078), N. P. (IC 15079), Kulbhushan Sethi (IC 15111) and Srinivasan Chandra (IC 15115), Engrs., 30th Jun. 1976.

PERMANENT COMMISSION (Special List)

Capt to be Maj

Joginder Singh (SL 600), 25th Jan. 1975.

K V Madhava Warde (SL 601), 30th May 1976.

Sohan Singh (SL 628), 6th Aug. 1976.

A H Syed (SL 639), P. Chakraborty (SL 644), Pattap Singh (SL 646), J. K. (SL 650), 17th Aug. 1976.

PERMANENT COMMISSION

Lts to be Capts

Raj Maj (IC 23744), Gish Kaur (IC 23859) and S V Srinivasa (IC 23821), Artillery, 21st Aug. 1975.

R F Khan (IC 28595) AOC, 21st Aug. 1975.

M S Bhatti (IC 28319) LMF, 21st Aug. 1975.

A M Apic (IC 23729), Armoured Corps, 21st Dec. 1975.

V K Gupta (IC 23891), S. Ram Singh (IC 23884) and Ashok Kumar (IC 23857), Artillery, 21st Dec. 1975.

S K Bakshi (IC 23826), Engineers, 21st Dec. 1975.

Bikram Singh (IC 23792) and M P S Virk (IC 24038), Inf., 21st Dec. 1975.

A S Bhatta (IC 24037), A-C, 21st Dec. 1975.

L D Jamleki (IC 224022) and I S Rao (IC 24044), AOC, 21st Dec. 1975.

PERMANENT COMMISSION (SPECIAL LIST)

Lt to be Capt

R A Wallace (SL 1526), 1st May 1976.

Chandrabha Singh (SL 1554), B B Nair (SL 1555), S Sivaswamy (SL 1557), Amrik Singh (SL 1573), and Pira Singh (SL 1596), 15th May 1976.

Bachhar Singh (SL 1637), K. J. Paul (SL 1638), P. S. Singh (SL 1652), S R E. (SL 1657), T V. (SL 1658) and K S Sumant (SL 1661), 16th Jun. 1976.

Krishna Datt (SL 1663), M A K. (SL 1666), R. A. (SL 1667), S S Ehandari (SL 1668), R S Mehta (SL 1669), Amar Nath (SL 1670), M Chackalingam (SL 1671) and M P Sharma (SL 1672) 1 Jul 1976.

K M Komulakaran (SL 1673), 4th Jul 1976.

V. Nagaraj (SL 1675), P G Ganapathy (SL 1676), 1st Jul 1976.

Puran Singh (SL 1677), 11th Jul 1976.

Raghunath Prasad (SL 1678), Joginder Singh (SL 1680) and Nirmal Singh (SL 1682) 1st Jul 1976.

PERMANENT COMMISSION

2/Lt to be Lt

Abhijit Guha (IC 30342) Art, 15th Jan. 1976.

K K Dangwal (IC 30339) Engrs, 16th Jan. 1976.

Pradeep Kumar (IC 30549) Rajput Regt 16th Jun 1976.

V K Prajnja (IC 30564) ASC, 16th Jun 1976.

SHORT SERVICE COMMISSION

Lts to be Quasi-Subs Capts

E B Patro (SS 17365), EME, 14th Feb 1972.

Prem Kumar (SS 17443), EME, 30th Aug 1971.

J E Singh (SS 18664), P R Jose (SS 18855) and Abcel Singh (SS 18862) AOC, 24th Apr 1975.

B R Yadav (SS 18889), EME, 24th Apr 1975.

D Mehta (SS 18896), Armoured Corps, 24th Apr 1975.

G L Panjwani (SS 18943), Engineers, 24th Apr 1975.

Amrik Singh (SS 18974), and S K Ghanwat (SS 18982), ASC, 24th Apr 1975.

T G Chitambar (SS 18991), EME, 24th Apr 1976.

S K Dalal (SS 18995), C S Nagpal (SS 19002) and V K Sayal (SS 19011), AOC, 24th Apr 1976.

2/Lts to be Lts

K A Uthappa (SS 27021), R M Raizada (SS 27048), S K Sehgal (SS 27051), Jagtar Singh (SS 27053), D S Multani (SS 27054), M A Khan (SS 27072), S N Anand (SS 27074) K K Malviya (SS 27082), A C Chibbar (SS 27121), M R Jai (SS 27122), D V Nairan (SS 27136), Datta (SS 27144), R K Gupta (SS 27151), P Mohan (SS 27155), R C Sarna (SS 27157), S K Saini (SS 27179), J M Thoompukal (SS 27189), P R Chowdhury (SS 27192), Sunil Kumar (SS 27223), F Mazumdar (SS 27224), S Sengupta (SS 27255), S K Basu (SS 27248), I V Sadasivan (SS 27254), B V Mohan (SS 27258), U R Rao (SS 27266), Provir Singh (SS 27273), R K Dey (SS 27290), Rajendra Singh (SS 27293) and Swaitantra Kumar (SS 27305), EME, 12th May 1976.

R. C. JAIN, Under Secy.

No. 2907, dated 8th September, 1976.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

Military Nursing Service

PERMANENT COMMISSION

Lts to be Capts

Miss K K Saraswathy NR-13831, 26.6-76 (Seniority from 6-11-70).

Miss T Saraswathy NR-13849, 26-6-74 (Seniority from 7-11-70).

Miss R M Rai NR-14038, 26-6-74 (Seniority from 7 Mar 1973).

Miss M Thomas NR-14442, 5-10-75.

Miss M Chakrabarty NR-14496, 21-11-74.

Miss C Valsala NR-14529, 11-2-1976.

(Army Medical Corps)

To be Sub Major (Clerk GD)

Sub (Cik GD) Mukhtiar Singh (JC-52396), 1st Sep 1976.

To be Sub Major (Store Keeper Technical)

Sub (SKT) Madan Lal Sharma (JC-45784), 1st Sep 1976.

To be Sub Major (Ambulance Assistant)

Sub (AA) Ruchan Singh (JC-35114), 1st Sep 1976.

To be Sub (Clerk GD)

Sub (Cik GD) Narinjan Singh (JC-56775), 1st Sep 1976.

To be Sub (Store Keeper Technical)

Nb Sub (SKT) Chiriyil Raman Pillai Gopinathan (JC-51938), 1st Sep 1976.

To be Sub (Ambulance Assistant)

Nb Sub (AA) Ram Sajiwan (JC-52390), 1st Aug 1976.

Nb Sub (AA) Gorakh Singh (JC-53033), 1st Sep 1976.

Nb Sub (AA) Uma Shankar (JC-53831), 1st Sep 1976.

Nb Sub (AA) Dharam Singh (JC-54486), 1st Sep 1976.

To be Sub (Driver MT)

Nb Sub (Dvt MT) Rati Ram (JC-57953), 1st Sep 1976.

Nb Sub (Drv MT) Jyoti Ram (JC-57750), 1st Sep 1976.

To be Nb Sub (Nursing Technician)

Hav (NA) Baijoo Singh (No 6799470 JC-84077), 24th Feb 1976.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Nov 1975 without effect on pay and allowances)

Hav (NA) Ebran Singh (No 6800265 JC-84078), 01st May 1976.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20th Dec 1975 without effect on pay and allowances)

Hav (NA) Kishan Singh (No 6801231 JC-84079), 09th Feb 1976.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20th Dec 1975 without effect on pay and allowances)

Hav (NA) Hari Nath Singh Kushwaha (No 6802306 JC-84080), 12th Mar 1976.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 1976 without effect on pay and allowances)

Hav (NA) Devi Parsad (No 6802358 JC-84081), 17th Mar 1976.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 1976 without effect on pay and allowances)

T. C. BHATIA, Under Secy.

No 2908, dated, 1st November, 1976.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY*Infantry**The Assam Regt**To be Nb Sub*

Hav Kawlzama (No 4336044 now JC-84327),* 14th Mar 1976.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1976 without effect on pay and allowances).

Hav Thatkhama (No 4336144 now JC-84328) 30th Jan 1976.

Hav Golap Chandra Gogoi (No 4336571 now JC-84329)* 12th Apr 1976.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 30th Jan 1976 without effect on pay and allowances)

Hav Nani Gopal Nath (No 4335204 now JC-84330) 29th May 1976.

Hav Sudhir Chandra Narzary (No 4335739 now JC-84331) 29th May 1976.

Hav Liangin Simte (No 4335289 now JC-84332), 1st July 1976.

Hav Krishna Babu Singha (No 4335761 now JC-84333), 1st July 1976.

Hav Babulal Sinha (No 4335823 now JC-84334), 23rd July 1976.

To be Nb Sub (Clerk)

Hav Clk Mihir Baran Chowdhury (No 4335853 now JC-84335), 1st July 1976.

*To be Nb Sub**The Bihar Regt*

CQMH Rajeshwar Singh (4237333 now JC-84308), 1st June 1976.

Hav Ram Nath Singh (4235836 now JC-84309), 17th June 1976.

Hav Satya Narain Singh (4237756 now JC-84310), 1st July 1976.

CHM Ram Bahadur Rai (4237760 now JC-84307), 13th July 1976.

*The Dogra Regt**To be Nb Sub*

Hav Avtar Singh (No 3946034 Now JC-84293), 1st June 1976

Hav Nand Lal (No 3949473 Now JC-84294), 7th June 1976.

Hav Piar Chand (No 3946545 Now JC-84295), 9th June 1976.

Hav Babu Ram (No 3947502 Now JC-84296), 1st July 1976.

Hav Namgial (No 3959200 Now JC-84326), 1st May 1976.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 2nd Feb 1976 without effect on pay and allowances).

Hav Shambu Ram (No 3946732 Now JC-84316), 24th May 1976.

Hav Kushal Singh (No 3947252 Now JC-84317), 1st June 1976.

Hav Dharam Singh (No 3947439 Now JC-84318), 22nd June 1976.

Hav Jogindar Singh (No 3946274 Now JC-84319), 1st July 1976.

Hav Rachhpal Singh (No 3946610 Now JC-84320), 1st July 1976.

Hav Parshotam Dass (No 3951039 Now JC-84321), 1st July 1976.

Hav Prithvi Raj (No 3951088 Now JC-84322), 1st July 1976.

Hav Din Dayal (No 3947467 Now JC-84323), 1st July 1976.

Hav Mani Ram (No 3946691 Now JC-84324), 1st July 1976.

To be Nb Sub (Clerk)

Hav Clk Rattan Lal (No 3948475 Now JC 84325), 1st May 1976.

*The Garhwal Rifles**To be Nb Sub*

Hav Narayan Singh Mahar (No 4036147 Now JC-84218), 1st Aug 1976.

To be Nb Sub (Clerk)

Hav (Clk) Prithvi Singh Kandari (No 4036967 Now JC-84219), 1st Aug 1976.

Hav (Clk) Sudarshan Singh Bartwal (No 4037099 Now JC-84220), 1st Aug 1976.

Hav (Clk) Rajeshwar Prasad Dhasmana (No 4035189 Now JC-84221), 1st Aug 1976.

Hav (Clk) Umraw Singh Badiyari (No 4036091 Now JC-84222), 1st Aug 1976.

11 GR

To be NSUB

Hav Dambarbahadur Limbu (No 9403733 now JC-84203), 1st July, 1976.*

*(Granted seniority in the rank of NSUB wef 2 May 1976 without effect on pay and allowances).

The Kumaon Regt

To be Nb Sub

BHM Bholu Ram (No 4150128 now JC-84311), 22nd Apr 1976.

Hav Kanhiya Ram (No 4145492 now JC-84312), 22nd Apr 1976.

CHM Satyavir Singh (No. 4150466 now JC-84313), 1st May 1976.

Hav Himat Chand (No 4147652 now JC-84314), 14th June 1976.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 1976 without effect on pay and allowances).

Hav Pratap Singh (No 4149179 now JC-84315), 1st July 1976.

Hav Brahm Dutt (No 4147415 now JC-84206), 6th July 1976.

The Mahar Regiment

To be Nb Sub

CHM Himangshu Bhowmik (No 9206062 now JC-84297), 1st July 1976.

BHM Dhani Ram (No 9206134 now JC-84298), 1st July 1976.

CHM Onkar Chand Verma (No 9204122 now JC-84299), 1st July 1976.

BHM Hanuman Singh (No 9202942 now JC-84300), 1st July 1976.

BHM Purshottam Bhai (No 9207874 now JC-84301), 1st July 1976.

Hav Tammanna Kamble (No 4538977 now JC-84302), 3rd July 1976.

The Madras Regt

To be Nb Sub

CHM Kalimada Pemmaiah Kariappa (No 2551297 now JC-84072), 1st July 1976.

Hav P V Purushothaman (No 2554415 now JC-84073), 6th July 1976.

Hav P Appaji (No 2550406 now JC-84074), 9th July 1976.

To be Nb Sub (Clerk)

Hav Clk Mammen TM (N 2546456 now JC-84075), 4th Oct 1975.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21st Sep 1975 without effect on pay and allowances).

Hav Clk S Chellappa (No 2546514 now JC-84076), 3rd Feb 1976.

The Sikh LI

To be Nb Sub

Hav Chanan Singh (No 4439072M now JC-84304), 8th June 1976.

Hav Ajaib Singh (No 4439185P now JC-84305), 15th July 1976.

Hav Gurdev Singh (No 4439294F now JC-84306), 29th July 1976.

To be Nb Sub (GD)

Hav Buta Singh (4438095N now JC-84303), 5th July 1976.

Regiment of Artillery

To be Nb Sub

Hav Dnanu Kadam (No 1146579 now JC-84223), 4th Feb 1976.

BHM G Rathakrishnan (No 1157403 now JC-84224), 1st Mar 1976.

RHM Sarju Prasad (No 1162921 now JC-84225), 1st Mar 1976.

RQMh Hoshiar Singh (No 1164301 now JC-84226), 1st Mar 1976.

RHM Wakil Singh (No 1146085 now JC-84277), 1st Mar 1976.

Hav Gurdev Singh (No 1142188 now JC-84228), 1st Mar 1976.

RQMh Thankappan Nair PN (No 1147014 now JC-84229), 1st Mar 1976.

Hav Krishnan Kutty M (No 1155778 now JC-84230), 1st Mar 1976.

Hav Babu Singh Dangi (No 1143633 JC-84231), 1st Mar 1976.

ROMh Sarjit Singh (No 1144857 now JC-84232), 1st Mar 1976.

BHM Krishan Dass Sharma (No 1145839 now JC-84233), 1st Mar 1976.

BHM Jag Ram Singh Yadava (No 1143076 now JC-84234), 1st Mar 1976.

RHM G Thankan (No 1153815 now JC-84235), 1st Mar 1976.

BHM Beer Singh Yadava (No 1156510 now JC-84236), 1st Mar 1976.

RQMh Roshan Lal (No 1153939 now JC-84237), 1st Mar 1976.

RHM Karnail Singh (No 1163833 now JC-84238), 1st Mar 1976.

BHM Phula Singh (No 1162769 now JC-84239), 1st Mar 1976.

BHM Partap Singh (No 1150934 now JC-84240), 1st Mar 1976.

Hav Bahadur Singh (No 1145977 now JC-84241), 1st Mar 1976.

RQMh Gurdev Singh (No 1148712 now JC-84242), 6th Mar 1976.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Mar 1976 without effect on pay and allowances).

RHM Romel Singh (No 1154745 now JC-84243), 7th Mar 1976.+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 1976 without effect on pay and allowances).

BHM Nagar Singh (No 1158797 now JC-84244), 12th Mar 1976.%

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 1976 without effect on pay and allowances).

RHM Velappan Nair K (No 1155451 now JC-84245), 15th Mar 1976.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 1976 without effect on pay and allowances).

BHM Ierayya Hiremath (No 1146117 now JC-84246), 19th Mar 1976.£

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 1976 without effect on pay and allowances).

BHM K Somasundaran (No 1147373 now JC-84247), 25th Apr 1976.&

&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 1976 without effect on pay and allowances).

Hav Kundan Lall (No 1160631 now JC-84248), 23rd June 1976.**

** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 1976 without effect on pay and allowances).

RHM Dayal Singh (No 1274911 now JC-84249), 22nd Mar 1976.

RHM Didar Singh (No 1166174 now JC-84250), 5th May 1976.++

++(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 22nd Mar 1976 without effect on pay and allowances).

RHM Anandrao Bhujugade (No 1170899 now JC 84251), 6th May 1976.%%

%%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 22nd Mar 1976 without effect on pay and allowances).

RHM P T Bopaiah (No 1155093 now JC-84252), 1st Apr 1976.

RHM Ram Kunwar (No 1155269 now JC-84253), 1st Apr 1976.

RHM Dhan Bahadur Chhetry (No 1145365 now JC-84254), 1st Apr 1976.

RHM Kishan Lal Sharma (No 1143546 now JC-84255), 1st Apr 1976.

BQMH Sucha Singh (No 1144365 now JC-84256), 1st Apr 1976.

RHM Bir Bahadur Singh (No 1143845 now JC-84257), 1st Apr 1976.

BQMH Dharam Singh (No 1145070 now JC-84258), 1st Apr 1976.

BHM Bachan Singh (No 1153617 now JC-84259), 1st Apr 1976.

BHM Ganesh Padhy (No 9202139 now JC-84260), 1st Apr 1976.

BHM Pritam Singh (No 1155803 now JC-84261), 1st Apr 1976.

BHM Balwah Singh (No 1154161 now JC-84262), 1st Apr 1976.

RHM Rawel Singh (No 1153944 now JC-84263), 1st Apr 1976.

BHM Mam Chand (No 1149096 now JC-84264), 1st Apr 1976.

CHM Prahlad Singh (No 1149718 now JC-84265), 1st Apr 1976.

BHM Brij Mohan Lal Sharma (No 1148866 now JC-84266), 1st Apr 1976.

BHM Arjun Singh Khatri (No 1150860 now JC-84267), 1st Apr 1976.

BHM Inder Singh (No 1156404 now JC-84268), 1st Apr 1976.

BHM Dhoom Singh (No 1157876 now JC-84269), 1st Apr 1976.

BHM Dharam Pal (No 1148112 now JC-84270), 1st Apr 1976.

BHM Balbir Singh (No 1149106 now JC-84271), 1st Apr 1976.

BHM Om Dutt Sharma (No 1143872 now JC 84272), 1st Apr 1976.

BHM Roshan Singh (No 1159705 now JC-84273), 1st Apr 1976.

BQMH Shankar Kadam (No 1274761 now JC-84274), 1st Apr 1976.

BQMH Aman Singh (No 1225762 now JC-84275) 1st Apr 1976.

BHM Maha Singh (No 1155293 now JC-84276), 7th Apr 1976.@@

@@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Apr 1976 without effect on pay and allowances).

RHM Kalyan Mahadik (No 1274655 now JC-84277), 1st Apr 1976.££

££(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Apr 1976 without effect on pay and allowances).

BHM M balakrishnan Nair (No 1155309 now JC-84278), 11th Apr 1976.&&

&&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Apr 1976 without effect on pay and allowances).

RHM Chandra Prakash Sharma (No. 1160806 now JC-11th Apr 1976.***

*** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Apr 1976 without effect on pay and allowances).

Hav Dhukul Singh (No 1275164 now JC-84280), 13th Apr 1976.+++

+++ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Apr 1976 without effect on pay and allowances).

RHM Jaya Raman N (No 1143514 now JC-84281), 25th Apr 1976.%%%

%%%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Apr 1976 without effect on pay and allowances).

RHM Jaswant Singh (No 1275048 now JC-84282), 11th Apr 1976.

RHM Gopalakrishnan, VcC (No 1171094 now JC-84283), 14th June 1976.@@@

@@@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 1976 without effect on pay and allowances).

BHM Gurdev Singh (No 1143734 now JC-84284), 1st June 1976.

To be Nb Sub (Clerk)

Hav (Clk) Madan Lal Prashar (No 1155202 now JC-84285), 5th Apr 1976.+*

+* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Apr 1976 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) P Balasubramaniam (No 1143121 now JC-84286), 6th Apr 1976.

Hav (Clk) K P Narayanan (No 1146938 now JC-84287), 1st May 1976.

To be Nb Sub (SKT)

Hav (SKT) Gian Chand (No 1146894 now JC-84288), 22nd Mar 1976.

Hav (SKT) Sewa Singh Ghotra (No 1161845 now JC-84289), 22nd Mar 1976.

Hav (SKT) Vas Dev Sharma (No 1155273 now JC-84290), 1st Apr 1976.

Hav (SKT) Bhaskaran KS (No 1158594 now JC-84291), 1st Apr 1976.

Hav (SKT) Parbhathi Lal Yadav (No 1156991 now JC-84292), 1st Apr 1976.

Corps of Engineers
Madras Engineer Group
To be Nb Subs

Hav Thamodhara Chetty Ramasamy (No 1315058 now JC-84189), 2nd May 1976.

Hav Veeraraghavelu Naidu Ethirajulu (No 1318827 now JC-84190), 5th May 1976.

Hav Sheik Shair Ali (No 1319745 now JC-84191), 6th May 1976.

Hav Arjunan Murugesan (No 1320710 now JC-84192), 10th May 1976.

Hav Karuppaiyl Harinadh Babu (No 1322223 now JC-84193), 7th June 1976.

Hav Govindarajulu Naidu Srinivasa Naidu Ramaswamy (No 1313640 now JC-84194), 25th June 1976.

Hav Vailasserri Prabhakaran (No 1324398 now JC-84195), 1st July 1976.

Hav Muniswamy Muniswamy (No. 1319167 now JC-84196), 1st July 1976.

Hav Mavilaveetil Narayanan Nambiar (No 1315983 now JC-84197), 3rd July 1976.

Hav Mallari Venkitesan (No 1314466 now JC-84198), 3rd July 1976.

Hav Kotakatterj Maruvote Raghavan Nambiar (No 1319780 now JC-84199), 3rd July 1976.

Hav Coil Pillai Selvaraj (No 1320386 now JC-84200), 18th July 1976.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 3rd July 1976 without effect on pay and allowances).

Hav Thulasiram (No 1314359 now JC-84201), 3rd Jul 1976.

Hav Valappile Vettai Balan (No 1318393 now JC-84202), 23rd July 1976.

Hav Kesavan Purusothaman (No 1319968 now JC-84205), 23rd July 1976.

To be Nb Sub SKT

Hav SKT Kasi Mariappan (No 1321854 now JC-84204), 1st July 1976.

Armoured Corps
To be Nb Rts

RDM Faqir Singh (No 1025659 now JC-84207), 1st Feb 1976.

SDM Dalvir Singh Raghava (No 1024511 now JC-84208), 22nd May 1976.

Dfr Sham Lal Thakur (No 1027713 now JC-84209), 7th June 1976.%

%(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 1st June 1976, without effect on pay and allowances).

Dfr Yash Karan Singh (No 1024396 now JC-84201), 2nd June 1976.

Dfr Hari Singh Bhati (No 1024191 now JC-84211), 17th July 1976.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 4th June 1976 without effect on pay and allowances).

Dfr Raj Pal Singh (No 1026171 now JC-84212), 14th June 1976.

RDM P K Alagesan (No 1029868 now JC-84213), 15th June 1976.

Dfr Hamir Singh (No 1025194 now JC-84214), 1st July 1976.

SDM Manphool Singh (No 1026433 now JC-84215) 4th Aug 1976.£

£(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 1st July 1976, without effect on pay and allowances).

MQMD Ishwar Singh (No 1030963 now JC-84216), 10th July 1976.

SDM Shen Singh (No 1026795 now JC-84217), 12th July 1976.

SDM Sohan Singh (No 1026840 now JC-84036), 10th June 1976.%

%(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 4th June 1976, without effect on pay and allowances).

RQMD Jaswant Singh (No 1024806 now JC-84037), 7th June 1976.

Dfr Amar Chand Saini (No 1026250 now JC-84038), 10th July 1976.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 10th June 1976, without effect on pay and allowances).

Dfr Jawala Singh (No 1024252 now JC-84039), 1st July 1976.

SDM Ajaib Singh (No 1024975 now JC-84040), 12th July 1976.

SDM Gurcharan Singh (No 1024263 now JC-84041), 17th July 1976.

R. C. JAIN, Under Secy.

No. 2909, dated 27th October, 1976.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

Defence Security Corps

To be Sub

Nb Sub P C Narayanan Nair (JC-32372), 1st May 1976.

Nb Sub Piar Singh Thakur (JC-9736), 1st May 1976.

Nb Sub K Baskaran Nair (JC-19287), 1st May 1976.

Nb Sub Radhakant Singh (JC-21197), 1st May 1976.

Nb Sub Ram Singh (JC-8181), 1st May 1976.

Nb Sub Shambu Dayal (JC-9407), 1st Jun 1976.

Nb Sub Lachhman Singh (JC-9520), 1st Jul 1976.

Nb Sub Khushal Singh (JC-10306), 1st Jul 1976.

Nb Sub Ramesh Chandra (JC-20156), 1st Aug 1976.

Infantry

The Dogra Regt

To be Sub Maj

Sub Dumnu Ram (JC-20255), 1st Aug 1976.

To be Sub

Nb Sub Ram Rath (JC-45054), 1st Aug 1976.

Nb Sub Bhagwan Dass (JC-46291), 1st Aug 1976.

Nb Sub Balwan Singh (JC-48559), 1st Sep 1976.

Nb Sub Sahsar Chand (JC-42955), 1st Sep 1976.

The Kumaon Regt

To be Sub Maj

Sub Narain Singh (JC-17720), 1st Sep 1976.

To be Sub

Nb Sub Daulat Chand (JC-50703), 1st Sep 1976.

*The Parachute Regiment**To be Sub*

Nb Sub Sri Narayan Singh Vishwakaram (JC-58991), 1st Sep 1976.

*The Sikh Regiment**To be Sub*

Nb Sub Kartar Singh (JC 44463), 1st June 1976.

Nb Sub Sowarn Singh (JC 50321), 1st Aug 1976.

Nb Sub Bhagwant Singh (JC 53906), 1st Sep 1976.

*Corps of Engineers**Madras Engineer Group**To be Subs*

Nb Sub K M Velayudan Nair (JC-41391), 1st Oct 1976.

Nb Sub M Ethuraju (JC-25180), 1st Oct 1976.

*The Intelligence Corps**To be Sub Maj*

Sub Raje Singh Negi (JC-11153), 1st Mar 1976.

To be Sub

Nb Sub Satjit Singh (JC-34555), 1st Jan 1976.

Nb Sub Rattan Singh (JC 34556), 1st Jan 1976.

Nb Sub Parasu Ram Singh (JC-34560), 13th Jan 1976.

Nb Sub Hakim Singh Kashwer (JC-34592), 18th Jan 1976.

Nb Sub Gurbachan Singh (JC-34593), 1st Feb 1976.

Nb Sub Karnail Singh Maan (JC-34905), 1st Mar 1976.

Nb Sub Jiwan Lal Shah (JC-34906), 1st Mar 1976.

Nb Sub Shamsher Singh (JC-35248), 1st Mar 1976.

Nb Sub Man Singh (JC-35249), 1st Mar 1976.

Nb Sub Prithvi Singh Rawat (JC-35250), 1st Apr 1976.

Nb Sub Bhagwan Singh (JC-35251), 1st Apr 1976.

Nb Sub Gurdial Singh (JC-35252), 1st May 1976.

Nb Sub Ind Raj Chauhan (JC-35253), 1st May 1976.

Nb Sub Kanwar Singh (JC-35254), 1st May 1976.

Nb Sub Sylvester S Hansda (JC-35556), 1st June 1976.

Nb Sub Murlidhar (JC-35554), 1st June 1976.

*Infantry**The Grenadiers**To be Sub*

Nb Sub Prem Singh (JC-38551), 1st Dec 1975.

Nb Sub Mangla Ram (JC-59036), 1st Jan 1976.

Nb Sub Gordhan Singh (JC-62748), 1st Mar 1976.

Nb Sub Ram Naresh Rai (JC-40664), 1st July 1976.

Nb Sub Pars Ram (JC-43915), 1st Aug 1976.

Nb Sub Chandgi Singh (JC-42182), 1st Aug 1976.

Nb Sub Hardial Singh (JC-46271), 1st Sep 1976.

SHAUKATULLAH KHAN, Under Secy.

No. 2910, dated 2nd November, 1976.—The President is pleased to make the following promotions :—

*REGULAR ARMY**Army Service Corps**(Supply)**To be Sub-Mej (Clerk GD)*

Sub Sudhir Ranjan Ghosh (JC-44134), 1st May 1976.

To be Sub (Clerk GD)

N/Sub Satpal Kalia (JC-54589), 1st Jan 1976.

*(Mechanical Transport)**To be Sub Maj*

Sub Hari Singh (JC-41798), 1 Aug 1976.

Sub Raghunath Singh (JC-41799), 1 Aug 1976.

Sub Malai Arunachala Hari Hara Perumal Pillai (JC-41800), 1 Sep 1976.

*Special List**Army Service Corps**(Mechanical Transport)**To be Nb Sub (Religious Teacher)*

L/Nk Jayanti Prasad (No 6612082 now JC-84350), 11th May 1976.

NACHHATTAR SINGH, Under Secy.

No. 2911, dated 2nd November, 1976.—The President is pleased to make the following promotions :—

*TERRITORIAL ARMY**Inf BN (TA)**107 Inf Bn (TA)**To be Sub*

Nb Sub Dojee Tshering Bhutia (TJ-1599), 1st July, 1976.

S. A. WADHWANI, Desk Officer.

No. 2912, dated 8th September, 1976.—The President is pleased to permit the undermentioned Nursing Officers to relinquish their temporary commission in the Military Nursing Service wef 26-6-74 and to the grant of permanent commission from the same dates with seniority for pay and promotion from the dates shown against their names vide AI 274/50 :—

*REGULAR ARMY**Military Nursing Service**To be Lt.*

Miss Koodakayi Kaliyath, SARASWATHY—NR-13831, 6-11-65.

Miss Thangavelu, SARASWATHY—NR-13849, 7-11-65.

Miss Ritu Maya, Rai—NR-14038, 7-3-1966.

T. C. BHATIA, Under Secy.

(MILITARY ENGINEER SERVICES)

No. 2913, dated 2nd November, 1976.—The undermentioned officer has resigned from service wef the date indicated against his name :—

Shri AMAR PAL SINGH SETHI, Tempy AEE(B/R), 31 Aug. 1976 (AN).

No. 2914, dated 2nd November, 1976.—The undermentioned officer resigned from service wef the date indicated against his name—

Shri I. B. SINHA, Tempy Arch., 30 Sept 1976 (AN).

N. N. MOHANTA, Under Secy.

No. 2915, dated 20th October, 1976.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire from Army service on attaining the age of superannuation :—

**REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION**

Lt Col (Wg Cdr) SM KRISHNAN (MR-01086W) (3765) AMC/PC, 30th June 1976 (AN).

T. C. BHATIA, Under Secy.

(REGULAR ARMY—AOC)

No. 2916, dated 2nd November, 1976.—The undermentioned officers retired from service wef the dates shown against their names :—

Shri HARBANS LAL SUNDD Tempy OOC (Admin)—26 Sep 76 (AN).

Shri AVTAR SINGH BAKSHI Tempy Ordnance Officer Civilian (Stores)—30 Sep 76 (AN).

Shri SANTA SINGH Pmt Civilian Assistant Security Officer—30 Sep 1976 (AN).

(MILITARY ENGINEER SERVICES)

No. 2917, dated 2nd November, 1976.—The undermentioned officers retired from service wef the dates indicated against their names :—

Shri ML DHAWAN, SBSO—30 Sep 76 (AN).

(REGULAR ARMY—AOC)

No. 2918, dated 2nd November, 1976.—The undermentioned officer died on the date shown against his name :—

Permt Civilian Assistant Security Officer Shri EJ D'souza—28 Jul 76.

N. N. MOHANTA, Under Secy

(Navy Branch)

NAVAL HEADQUARTERS

No. 2920, dated 29th October, 1976.—The President is pleased to promote Shri Tapeshwar Nath, pmt ACSO, as Offg C.S.O. in the AFHQ Civil Service wef 11th Oct, 1976 until further orders vice Shri O. P. Sood, CSO, granted 82 days leave from that date.

No. 2921, dated 29th October, 1976.—The President is pleased to promote Shri S. N. Puri, pmt Asstt., as Offg A.C.S.O., from 19th July, 1976 to 28th Sep., 1976 vice Shri Harbans Lal granted leave.

No. 2922, dated 29th October, 1976.—The President is pleased to promote Shri L. N. Nigam, pmt Asstt., as Offg A.C.S.O., from 10th Aug., 1976 to 29th Sep., 1976 vice Shri B. K. Pillai, granted leave.

G. SRINIVASAN,
Sahayak Mukhya Prashasan Adhikari (A)

NAVY BRANCH

No. 2923, dated 3rd November, 1976.—The President is pleased to make the following promotions :—

**INDIAN NAVY
PERMANENT COMMISSION
EXECUTIVE BRANCH**

SLT to be LT

R Kaushal (01403 N), 1-976 vide Regulation 121 of Regs Navy Part III Statutory.

Anil Kumar (01433 F), KC Sood (01429 Y); and J A Sutrao (01430 Z), 16-9-76 vide Regulation 121 of Regs Navy Part III Statutory.

S Khera (01467 H) and F A Rodrigues (01448 R), 16-9-76 vide Regulation 121 of Regs Navy Part III Statutory.

ENGINEERING BRANCH

SLT to be LT

Narendra Singh (40548 B), 25-9-76 vide Regulation 124 of Regs Navy Part III Statutory.

ELECTRICAL BRANCH

SLT to be LT

D G Chirania (50437 B), 26-9-76 vide Regulation 126 of Regs Navy Part III Statutory.

SPECIAL DUTIES LIST

AG SLT (SDME) to be SLT (SDME)

K S Rawat (85068 K), 1-4-76 with seniority of (for promotion only) 1-4-75 vide NI 32/67.

MALKIT SINGH, Under Secy.

No. 2924, dated 2nd November, 1976.—The undermentioned officer resigned from service wef the date indicated against his name :—

Shri MV A Kazi Pmt Senior Foreman/Offg Civilian Technician Assistant (Engg), 1st Apr 1976 (FN).

N. N. MOHANTA, Under Secy.

VAYU SENNA MUKHYALAYA

No. 2925, dated 25th November, 1976.—On attaining the age of superannuation viz 58 years on 18-8-1976 Shri Sita Ram, ACSO retired from service wef 31 Aug 76 (AN) and transferred to pension establishment 1 Sep 1976.

G. SRINIVASAN, Asstt. CAO

(AIR BRANCH)

No. 2926, dated 15th October, 1976.—The President is pleased to make the following subs Promotions :—

**INDIAN AIR FORCE
LGS BRANCH**

Wg Cdr to be Gp Capt

V P Singh (3534)—1 Apr 1976.

ADMIN BRANCH

Sqn Ldr to be Wg Cdr

MMR Johar (4744); D Choudhuri (4759); CLA Malik (4833); K Swaminathan (5084); MC Durgapal (4914)—1 Apr 1976.

AE(M) BRANCH

Sqn Ldrs to be Wg Cdrs

Sucha Singh (5367); S L Relan 5493)—1 Apr 1976.

AE(L) BRANCH

M K Bidani, VSM (5160); N S Bishnoi (5159); S S Sachdeva (5161); B S Hatangadi, VSM (5492); A P Venkataratnam (5249); R K Mahajan (5251)—1 Apr 76.

K N M Narayanan (5351); A K Dutta (5352)—1 Oct 75.

No. 2927, dated 21st October 1976.—The President is pleased to make the following promotions :—

INDIAN AIR FORCE**F(P) Branch****Gp Capt to be acting Air Cdre**

R A Weir, Vr CVM (3881), 6 Jan 1976.

J S Wohra (3943), 1st Mar 1976.

M M Singh, AVSM, Vr C (4023), 19 Mar 1976.

AE(M) Branch**Gp Capt to be acting Air Cdre**

S S Sahgal (3777), 13 Apr 76.

AE(L) Branch**Wg Cdr to be acting Gp Capt**

K S Bhatia, AVSM (4139), 2nd Feb 1976.

Flying (Pilots) Branch**Flt Lt to Sub Sqn Ldr**

S. N. Garg (9017), 25th Dec 1975.

B B Soni (9392); KMS Tomar (9393); V Arora (9394); N. Rangachari (9396); Harinderpal Singh (9397); N. Senthilnathan (9401); Kandeep Narain (9405); V K. Vir (9406); G S Grover (9407); H S Gill (9408); K K Kerpaa (9409); K P Kar (9411); K K Puri (9415); S S Sidana (9418); R P Sami (9419); A T Lingaraja (9425); B J S Sandu (9427); C Z S Sandu (9428); S P Malkani (9429); K S Tandon (9432); S D Manjrekar (9433); K S S Rana (9437); Naresn Chander (9438); A Mukherjee (9439); Pramod Sahney (9440); L P S Pannu (9445); S K Rastogi (9446); A D Bhargava (9448); Jagdish Singh (9450); J S Raha (9452); A K Agrawala (9453); D K Cooper (9456); Kam Singh (9458); D S Ahluwalia (9460); H S Sardesai (9463); C L Bhasin (9465); S S Tyagi (9467); P Vijay (9468); G S Gill (9470); O S Sareen (9473); T Jayaraman (9474); S G Prabh (9478); A K Singh (9481); Y Galwar (9482); J P Taank (9486); V B Shinde (9487); H S Sekhon (9512); N Minocna (9513); R L Bedi (9514); Narinder Singh (9516); C Mathew (9518); D S Chauhan (9520); A K Singh (9521); M M Kapur (9522); B S Jaspal (9523); R V Singh (9524); V K A Gupta (9525); H S Vark (9526); H K Sachdeva (9528); S S Bajwa (9530); R M Hormusjee (9531); R K Bisnoi (9533); N S Malhi (9534); Amitavasen (9543); P R Potnis (9544); S P S Raghava (9547); S P S Lamba (9548); Bakshish Singh (9550); Harjit Singh (9552); S K Sharma (9553); J P Saklani (9554); B Sankari (9555); P K Gupta (9556); A K Badal (9560); E J Rodrigues (9564); A P Feegrade (9566); P J Singh (9567); S Paul (9570); M Z Siddiqui (9571); S M Nanda (9445); R I Sayal (9462); Baldeo Singh (9477); N R Pejaver (9480); G P Shugal (9532); D C Bhardwaj (9545); S K Anand (9572); A C Mathur (9455); Tejinder Singh (9535); D D Singh (9476); S C Varma (9541); and V S Samsi (9472); 16th May 1976.

Flying (Navigators) Branch

P M Ahuja (9489); Tarlochan Singh (9491); N D Sud (9493); Rajeeve Lochan (9494); K S Pardeshi (9495); A K Seli (9496); R S Chauhan (9498); S C Mahajan (9499); M S Bohanian (9500); P P Kulkarni (9503); J J Singh

(9504); D S Bhullar (9506); S N Deshpande (9507); S P Gaur (9508); S K Kakar (9509); B K Chawla (9511); and S K Ray (9502); 16th May 1976.

Flying (Pilots) Branch**Flt Lts to be Subs Sqn Ldr**

D Yadav (8991); 30th June, 1976.

Flying (Navigators) Branch

K K Kaushal (9573); 4th June, 1976

R K Maince (9127); 24th Jan, 1976.

AE(M) Branch**(Ft Lt to be Subs Sqn Ldr)**

N Ashutosh (8277); K Razdan (8005); Phillip George (9603); N P Singh (8229); S D Varsa (9609); S K Grover (8017); G Nair (9610); A M Ganesh (8213); U P Sru (7989); U B Bhatt (8216); B P Singh (8008); N V Kamath (8292); R L Mehta (9614); A V Mahadevan (9616); J N Saxena (8003); Ramesh Kumar (7993); V N Bansal (7994); S H K Shetty (7992); D S Hazura (8230); B S Sinora (8232); R P Mehra (8221); R S Sadyara (8814); G S Sandhu (8228); N R Reynolds (8813); B Sinha (9615); G P S Grewal (8227); A U Mudbidri (8811); 3rd July, 1976.

R K Sethi (8007) and J S Kalra (7999); 17th July 1976.

AE(L) Branch

R C Singh (9598); S Rajagopalan (8806); K S Sohanpal (8808); P N Talwar (9607); N Somasekhara Rao (8809); S Venkatesam (8810); S C Bhatia (8807); V S Mall (9602); M K Bakshy (9596); A S Varma (9597); S D Kumar (9599); S K K Parma Hamsa (7753); S C Jain (7757); Balwant Singh (9600); R B Asatkar (8219); K O George (9604); C R Iyer (8804); S P Krishnamurthy (9605); D S Saggi (8805); Sukhdev Raj (9608); S Kalyanaraman (7949); P R Pando (8234); Umashankar Surey (8223); Mritunjai Singh (8294); M L Goel (7966); M Masilamoni (9612); S C Jyotipunj (8211); M S Sethi (9613); N J Pillai (8802); Iqbal Singh (8801); J K Jain (7963); R K Hastir (8233); P S Geckee (8800); A G Deshmukh (8803); and S P Rao (8799); 3rd July, 1976.

Fg Offr to be Subs Flt Lt**Lgs Branch**

G S Bajwa (12350); 27th June, 1976.

No. 2928, dated 25th October, 1976.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire from service wef 1 Apr 76 at his own request. On his voluntary retirement, he is transferred to Regular Air Force Reserve for the period indicated against his name.

INDIAN AIR FORCE**F(P) BRANCH**

Air Cdr P M Wilson (3590), from 1st Apr 1976 to 31st Mar 1981.

No. 2929, dated 26th October, 1976.—The President is pleased to permit release of the undermentioned officers from the service at their own requests.

INDIAN AIR FORCE**F(P) BRANCH**

Flt Lt R Kaul (10595), 2nd Jul, 1976.

Flt Lt A A R Shirke (10492), 21st Aug 1976.

R K DHIR, Under Secy.